

दिनांक: तारीख	महीना	ਕਾ
---------------	-------	----

व्यक्तियों के लिए खाता खोलने का फार्म

शाखा:																
खाता सं.									शा	खा अल्फा	कूट		ट	गोजना व	कूट	
मैं/हम निम्नानुसार मेरा/हमार	ा जमा खाता आपकी शार	वा/बैंक में खो	लने का अ	नुरोध क	रता हूँ/व	ज्रते है: (सम्बद्ध ख	वाते के प्र	कार क	ो (√) चिन्हित	न करें)					
खाते का प्रकार		योजना व	का नाम				खा	ते का प्र	कार			योजन	ा का नाम			
ा बचत बैंक खाता							साव	वधि जमा	खाता							
🔲 चालू खाता								य खाता								
पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	(संबोधन श्री/श्रीमती/इत	यादि, प्रथम,	मध्य एवं अ	iतिम ना	म के क्रम । ।	में, शब्द	ों के बीच ।	। जगह छं ।	ोडते ह	हुए)	1 1				पुरुष/	स्त्री/टीजी
1 T T L E																
2 TITLE																
3 T I T L E																
जन्म की तारीर 1	व (तारीख/महीना/वर्ष)		पैन सं. 	(यदि पै	ान सं. उप 	लब्ध न	हो तो फा 	र्म 60/61 	। संलग्न	म करें) 		ग्राह 	हक आईडी 	(यदि व	होई वर्तम 	ान में हो)
2				Ì	Ī				Ì						Ī	
3							i							Ī		
व्यवसाय*	स्थिति**	a	 गार्षिक आय	(रुपयों	में)		प्रथम	— <u>'</u> आवेदक	के साध	थ रिश्ता		राष्ट्रीयता		पिता/प	र्मात का व	नाम
1				`								^		,		
2																
3																
* कृपया निम्नलिखित में से च		155										10 m				
	स्वनियोजित स्टॉक ब्रोकर	पेशेव कषि	र			राजनीति एंटीक डी				गृहिणी आर्म्स डील	7	विद्यार्थी व्यवसाय		रक्षा क अन्य	मचारी	
** कृपया निम्नलिखित में से च			——— तो क.कू.सं	.का उल			ol C l C			1 911. (1 01(1	`	-44(114		01:4		
	गरिष्ठ नागरिक	स्टाफ (क.)		<u> </u>	भूत	 पूर्व स्टाफ	(क.व्	क्.सं.)	पेंशनग	τ 1	 एनआरआई	अन्य/	/सामान्य	
अभिभावक का नाम (नाब	गालिग के मामले में):									——— नाबालि	ग के साथ	रिश्ता (एक क	ोचिन्हि	त करें)		
(नाबालिग की जन्म तारीख								पिता व		माता व नै			वास्तविब		अन्य	
* विधिक अभिभावक के माम	ाले में (न्यायालय द्वारा अ	भिभावक के रू	प में नियुक	त किए					र्गित संत	तम्र करें.						
TTG	थम आवेदक					ता का न हेतीय आ	ाम एवं प	ाता					n andara			
3R	यम आवदक				IS	ताय आ	वदक					र्ववार	य आवेदक			
परिचालन संबंधी निर्देश (वृ	- ,		· ·			1										
स्वयं	दोनों में से कोई एक अ	थवा उत्तरजीवी	पहर	ला या उ	त्तरजीवी		ŧ	नंयुक्त रूप	से		क्रोई एक य	या उत्तरजीवी	अन्य	। (कृपय	ग उल्लेर	व करें)
 अपेक्षित सुविधाए (कृपया	 समचित बॉक्स को /√) चिन्हित क्रों):													
51414M G144N (1814A)	चेक बुक	714176/14/	.,,•							 खाते की f	——— वेवरणी वि	 हस प्रकार चाहि	 ए			
जारी चेक श्रृंखला क्रमांक	से					पास	बुक		डाक		ई−मेल [— खा में सुपुर्व	गी 🗆	1	
जारी करने की तारीख:							ुः रणी की उ	_ ਮੁਕੂधਿ∙	मासि		` ा ∟ त्रैमासिव					
इंटरनेट बैंकिंग-बड़ौदा कनेक					डेबिट सह								बैंकिंग			
कृपया प्रथम सभी आवेदकों		nu कार्ट जर्म	ो क्यों (टो ग				L	II 311 22	रजीती	/कोर्ट एक अ	शिता उसग			ы). 		
नृत्यपा प्रथम समा जापदका		ाएम काड जार बिट सह एटी											राम अस्ति।	7).		
प्रथम आवेदक																
द्वितीय आवेदक				_					\rightarrow					_		
तृतीय आवेदक																



पूर्ण हस्ताक्षर (चालू लिखावट में):

(एकल / प्रथम आवेदनकर्ता)

1	<u>н</u>										
गली/रोड एवं क्षेत्र/स्था	न										
शहर एवं जिला											
राज्य एवं देश											
पिन कोड											
टेलीफोन नं., फैक्स नं.											
मोबाइल											
ई-मेल											
६-मल							<i>LL</i>				
						हा पता (याद	र निवासीय पते से				
			7	प्रथम आवेद	दक		ाद्व	तीय आवेदक			तृतीय आवेदक
फ्लैट सं./मकान का नाम	Г										
गली/रोड एवं क्षेत्र/स्था	न										
शहर एवं जिला											
राज्य एवं देश											
पिन कोड											
टेलीफोन नं., फैक्स नं.											
मोबाइल											
माबाइल					A / _	2 2		7:			
		<u> </u>				्नआरइ क म	मामले में, भारत			<u> </u>	
			7	प्रथम आवेद	दक		ां द्व	तीय आवेदक			तृतीय आवेदक
फ्लैट सं./मकान का नाग											
गली/रोड एवं क्षेत्र/स्था	न										
शहर एवं जिला											
राज्य एवं देश											
पिन कोड											
टेलीफोन नं., फैक्स नं.											
	./20										
अन्य सूचना : (एक को											
शिक्षा	: [नॉन मेट्रिक		एसएस	सी/एचएसस	री स्नात	तक	स्नातकोत्त	ţ		
मासिक आय (रुपये)	. [5000/- तक	500	1-10000	1000	1-20000	20001-5000	50001-1 ला	ख 1 लार	व्र से अधिक	
			1000		1.000	. =0000		7000011(11	G I (II)	4 (1 911-1-17	
खाते में अपेक्षित वार्षिव											
यदि वेतनभोगी है तो, वि	नेयोक्ता :	(एक को √ f	चेन्हित करे	iλ							
				· /							
प्रोप्राइटरशीप					 प्राझेदारी	स	 पर्वजनिक क्षेत्र	प्राइवेट लि.	सरव	 हारी	अन्य (कपया स्पष्ट करें)
	पब्लिक लि	ामिटेड ए	मएनसी		पाझेदारी	स	ार्वजनिक क्षेत्र	प्राइवेट लि.	सरव	मारी —	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को	पब्लिक लि ∕ चिन्हित	ामिटेड ए करें)	मएनसी	ŧ		,				मारी -	
यदि पेशेवरः (एक को ज	पब्लिक लि ∕ चिन्हित आर्किः	मिटेड ए करें) टेक्ट	मएनसी			स आयकर कन्स		प्राइवेट लि.	सरव वकील	कारी —	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवरः (एक को डॉक्टर यदि व्यावसायिकः (एव	पब्लिक लि ⁄ चिन्हित आर्किः क को √ चि	ामिटेड ए करें) टेक्ट प्रन्हित करें)	मएनसी	/ सीएस		आयकर कन्स	ल्टेंट इंर्ज	 नियर	वकील		अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ	पब्लिक लि / चिन्हित आर्किंक क को ∕ चि ावर संपदा	ामिटेड ए करें) टेक्ट प्रन्हित करें) एंटीक	मएनसी सीए	ŧ		,		 नियर	वकील	हारी टॉक ब्रोकर	
यदि पेशेवर: (एक को प् डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित	पब्लिक लि ✓ चिन्हित │ आर्किंत क को ✓ चि विस्तित्व	ामिटेड ए करें) टेक्ट बन्हित करें) एंटीक को ✓ चिन्हित	मएनसी सीए करें):	/ सीएस	7	आयकर कन्सव त्यापारी	ल्टेंट इंर्ज	 नियर	वकील		अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित	पब्लिक लि ✓ चिन्हित │ आर्किंत क को ✓ चि विस्तित्व	ामिटेड ए करें) टेक्ट बन्हित करें) एंटीक को ✓ चिन्हित	मएनसी सीए करें):	/ सीएस	7	आयकर कन्सव त्यापारी	ल्टेंट इंर्ज	 नियर	वकील		अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित] मैं/हम घोषित करते	पब्लिक लि ✓ चिन्हित आर्किं क को ✓ चि विस् संपदा त बॉक्स ब हैं कि मैं/ह	ामिटेड ए करें) टेक्ट प्रन्हित करें) एंटीक को ✓ चिन्हित म किसी अन्य वै	मएनसी सीए करें): वैंक/बैंकों से	/ सीएस सेवा दाता कोई ऋण	्र ट सुविधा नहीं	आयकर कन्सव त्यापारी ले रहे हैं.	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव	नियर तर कृषि	वकील		अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को प्रांक्टर यदि क्यावसायिक: (एक को प्रांक्टर यदि व्यावसायिक: (एक को प्रांक्टर करते $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	पब्लिक लि चिन्हित आर्कित फ को ⁄ चि विस्तर संपदा त बॉक्स व हैं कि मैं/ह हैं कि मेरे/	ामिटेड ए करें) टेक्ट प्रन्हित करें) एंटीक को ✓ चिन्हित म किसी अन्य वै	मएनसी सीए करें): वैंक/बैंकों र अन्य बैंकों र	/ सीएस / सेवा दाता ने कोई ऋण की शाखाओं	्र पुविधा नहीं में निम्नर्ला	आयकर कन्सल त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खां	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ	नियर नर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र	टॉक ब्रोकर	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित] मैं/हम घोषित करते	पब्लिक लि चिन्हित आर्कित फ को ⁄ चि विस्तर संपदा त बॉक्स व हैं कि मैं/ह हैं कि मेरे/	ामिटेड ए करें) टेक्ट प्रन्हित करें) एंटीक को ✓ चिन्हित म किसी अन्य वै	मएनसी सीए करें): वैंक/बैंकों र अन्य बैंकों र	/ सीएस सेवा दाता कोई ऋण	्र पुविधा नहीं में निम्नर्ला	आयकर कन्सल त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खां	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव	नियर नर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र		अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को प्र डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित् [] मैं/हम घोषित करते [] मैं/हम घोषित करते	पब्लिक लि चिन्हित आर्कित फ को ⁄ चि विस्तर संपदा त बॉक्स व हैं कि मैं/ह हैं कि मेरे/	ामिटेड ए करें) टेक्ट प्रन्हित करें) एंटीक को ✓ चिन्हित म किसी अन्य वै	मएनसी सीए करें): वैंक/बैंकों र अन्य बैंकों र	/ सीएस / सेवा दाता ने कोई ऋण की शाखाओं	्र पुविधा नहीं में निम्नर्ला	आयकर कन्सल त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खां	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ	नियर नर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र	टॉक ब्रोकर	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं/हम घोषित करते [] मैं/हम घोषित करते	पब्लिक लि चिन्हित आर्कित क को ⁄ चि विस्तर संपदा त बॉक्स व हैं कि मैं/ह हैं कि मेरे/	ामिटेड ए करें) टेक्ट प्रन्हित करें) एंटीक को ✓ चिन्हित म किसी अन्य वै	मएनसी सीए करें): वैंक/बैंकों र अन्य बैंकों र	/ सीएस / सेवा दाता ने कोई ऋण की शाखाओं	्र पुविधा नहीं में निम्नर्ला	आयकर कन्सल त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खां	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ	नियर नर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र	टॉक ब्रोकर	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं/हम घोषित करते [] मैं/हम घोषित करते	पब्लिक ि ✓ चिन्हित ॑ आर्किं क को ✓ चि विद्यासम्बद्धाः त बॉक्स व हैं कि मैं/ह हैं कि मेरे/ः	मिटेड ए करें) इक्ट प्रिन्हित करें) एंटीक हो ४ चिन्हित म किसी अन्य ई हमारे आपके /	पएनसी सीए करें): वैंक/बैंकों र अन्य बैंकों र बैंक/प	/ सीएस / सेवा दाता ने कोई ऋण की शाखाओं	्र पुविधा नहीं में निम्नर्ला	आयकर कन्सल त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खां	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ	नियर नर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र	टॉक ब्रोकर	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को ज डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं/हम घोषित करते [] मैं/हम घोषित करते वैंक एवं	पब्लिक ि / चिन्हित आर्किं क को / चि विद्यासम्बद्धाः त बॉक्स व हैं कि मैं/ह हैं कि मेरे/ शाखा	ामिटेड ए. करें) व्यव्य प्रिन्हित करें) एंटीक ो ४ चिन्हित म किसी अन्य है हमारे आपके /	स्पिए सीए करें): वैंक/बैंकों रे वैंक/र	सीएस सीवा दाता सेवा दाता कोई ऋण की शाखाओं शाखा का स	्र सुविधा नहीं में निम्नर्ला स्थान	आयकर कन्सल त्यापारी ले रहे हैं. खित जमा खा	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ द्वाता/सुविधा क	नियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र र	टॉक ब्रोकर शि	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें)
यदि पेशेवर: (एक को ज डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं /हम घोषित करते वेंक एवं नियम एवं शर्तें तथा घोषणा (मैं)/हमने समय-समय पर बैंक व	पब्लिक लि √ चिन्हित │ आर्किं क को √ चि वर संपदा त बॉक्स व हैं कि मैं/ह हैं कि मेरे/ शाखा कृपया समुवि के बोचर में दी	मिटेड ए. करें) टेक्ट ग्रन्हित करें) एंटीक एंटीक ने 'चिन्हित म किसी अन्य वं हमारे आपके /ः वा बॉक्स में (<) गई/बँक आफ़ बह	पएनसी सीए करें): वैंक/बैंकों रे बैंक/र् बैंक/रै वैंकों व	सीएस सेवा दाता ने कोई ऋणः की शाखाओं	सुविधा नहीं में निम्नलिर्गि स्थान unkofbaroda	आयकर कन्सव त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खाव ख	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ <mark>बाता/सुविधा क</mark>	नियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र र	टॉक ब्रोकर शि	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या
यदि पेशेवर: (एक को ज डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं/हम घोषित करते वेंक एवं ! नियम एवं शर्ते तथा घोषणा (मैंगे/हमने समय-समय पर बैंक स सहमत हूँ/सहमत हैं. [] मैं/हम बैंक की विशिष्टता	पब्लिक लि ✓ चिन्हित आर्किं क को ✓ चि विद्यास संपदा त बॉक्स ब हैं कि मैं/ह हैं कि मेरे/ शाखा कृपया समुश् कृपया समुश् अं/उत्पादों त	ामिटेड ए. करें) हेक्ट ब्रिन्हित करें) एंटीक एंटीक ने ✓ चिन्हित म किसी अन्य है हमारे आपके / वित बॉक्स में (✓) गई/बैंक आफ बह	पएनसी सीए करें): केंत्र/बैंकों रे करें): करें): करें): करें):	स सीएस सेवा दाता ते कोई ऋण की शाखाओं शाखा का स हाइट <u>www.ba</u>	्र सुविधा नहीं में निम्नर्ला स्थान ankofbaroda	आयकर कन्सत त्यापारी ले रहे हैं. खत जमा खा ट्ट	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ बाता/सुविधा क र्शत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं.	नियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र र	टॉक ब्रोकर शि	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या
यदि पेशेवर: (एक को ज डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं /हम घोषित करते वंक एवं मैं /हम घोषित करते वंक एवं सहमत् हैं /सहमत् कें सहमत् हैं /सहमत केंं [] कृपया बैंक हारा समय-सम	पब्लिक लि / चिन्हित आर्किं क को / रि वावर संपदा त बॉक्स व हैं कि मैं /ह हैं कि मेरे / शाखा कुपया समुवि कोचर में वी	प्रिटेड ए. करें) टेक्ट बन्हित करें) एंटीक पंटीक ने चिन्हित म किसी अन्य दें हमारे आपके /ऽ वित बॉक्स में (४) गई/बैंक आफ बह	पएनसी सीए करें): वेंक/बैंकों रें अन्य बैंकों वें करें): वेंदित की वेंब स	स सीएस सेवा दाता कोई ऋण की शाखाओं शाखा का स शाइट <u>www.ba</u> नल ऑफरों के	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला स्थान unkofbarods बारे में जानकार्र बॉफरों के लिए ग	आयकर कन्सल त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खा उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ उ	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ द्वाता/सुविधा क र्शत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं.	नियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र र	टॉक ब्रोकर शि	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या
यदि पेशेवर: (एक को ज डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं/हम घोषित करते व व में/हम घोषित करते व व के एवं श्रेतिक एवं श्रेतिक एवं श्रेतिक स्था स्थित हमने समय-समय पर वैंक स्थान हैं. [] मैं/हम बैंक की विशिष्टता	पब्लिक लि ✓ चिन्हित आर्किं क को ✓ ि विद्यासम्पदा त बॉक्स व् हैं कि मैं/ह हैं कि में/ शाखा कृपया समुक्ति कं ब्रोचर में वी ऑ/उत्पादों त न्य पर प्रस्तु न्य च चेक बृव	मिटेड ए. करें) टेक्ट ब्रिट्टिंक्ट ब्रिट्टिंक्ट एंटीक ो ' चिन्हित करें) म किसी अन्य वै हमारे आपके /ः व्या बॉक्स में (/) गई/बैंक आफ़ वह	पएनसी सीए करें): केंक/बैंकों रे केंक/। केंक/। करें): केंक/। करें): क्रिस्तुत प्रमोशा प्रस्तुत प्रमोशा हिसारे खाते से	सीएस सेवा दाता कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स्	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला ध्यान ankofbaroda बारे में जानकार गुंफरों के लिए स	आयकर कन्सत त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खात खेत जमा खात के चहता हैं/चाह नुझे/हमें कॉल/स	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ द्वाता/सुविधा क र्शत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं.	नियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र र	टॉक ब्रोकर शि	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या
यदि पेशेवर: (एक को जंडॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एक निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं /हम घोषित करते	पब्लिक लि पित्रिं चिन्हित आर्किः के को पित्रिं त वॉक्स व हैं कि मैं / हैं हैं कि मेरे / शाखा कुपया समुि के बोचर में दी ऑ/उत्पादों त त्य पर प्रस्तुत ान्य चित्रत ब्या । भी प्रकार के	मिटेड ए. करें) वेवट विन्हित करें) एंटीक में चिन्हित करें में चिन्हित में चिन्हित में किसी अन्य वै हमारे आपके / वेवि वेवत बॉक्स में (४) गई/बँक आफ बह् था समय-समय पर विभिन्न विशिष्टताः जारी करते तथा मेरे, जारी करवादाराँ वे	पएनसी सीए करें): वैंक / बैंकों रे करें): वैंक / बैंकों रे अन्य बैंकों उ करें): वैंदा की वेब स प्रस्तुत प्रमोश मंं) उत्पादों तर हमये पारे परिस्	स्योएस सीएस सेवा दाता	सुविधा नहीं में निम्नर्ला आkofbaroda बारे में जानकार्र मॅफरों के लिए ! नुसार प्रभार वस्क अनुसार कि	आयकर कन्सव त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खाव है बेत जमा खाव पर प्रदिष्ट वे चाहता हूँ/चाह मुझे/हमें कॉल/स सूल करें. (विकल् मा जाएगा. बह बालिंग नहीं ह	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ द्वाता/सुविधा क ग्रंत उपर्युक्त खातों/सेव को हैं. ग्रंपर्क न करें. ल्प दें) हो जाता.	नियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं:	वकील र र	टॉक ब्रोकर शि	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या
यदि पेशेवर: (एक को जं डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एक निर्माण स्थ निर्माण स्थ योषणा (कृपया समुचितः [] मैं/हम घोषित करते वें कें एवं डॉक्टर एवं डॉक	पब्लिक लि	मिटेड ए. करें) टेक्ट बन्हित करें) एंटीक पंटीक ो चिन्हित म किसी अन्य वै हमारे आपके / उ विभन्न विशिष्टता जारी करें तथा मेरे ज का भूगतान ऊपर भावी सन्यवहारां व	पएनसी सीए करें): वेंक/बैंकों रें करें: बेंक/बैंकों रें करें: बेंक/डें करें): वेंदिन निर्धे प्रिक्त सें हिये गये परिक्त तें तक प्रिक्त प्रक्ति के लिए उस्तन हैं	सीएस सीएस सेवा दाता सेवा दाता ते कोई ऋण की शाखाओं शाखाओं शाखाओं शाखाओं शाखाओं की शाखाओं विकास की शाखाओं विकास की शाखाओं विकास की शाखाओं विकास की शाखाला की शाखाला विकास की शाखाला की शाखाला विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला sunkofbaroda ank में जानकार्र गंफरों के लिए ग् नुसार प्रभार वस् के अनुसार कि ं के एवज़ में मैं	आयकर कन्सल त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खां रख बेट जमा खां पर प्रदिश् वेचहता हूँ/चाह पुढ़े/हमें कॉल/स् जूल करें. (विकल या जाएगा. वह बालिग नहीं ह बैंक को स्रितिपुल	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ इाता/सुविधा क वंत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं. तंपर्क न करें. त्प दें) हो जाता. तें करूंगा.	नियर नर कृषि ण सुविधाएं हैं: प्रकार	वकील र र प्रभारों संबंधी बैं	टॉक ब्रोकर शि	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या ड और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हे
यदि पेशेवर: (एक को जें डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ योषणा (कृपया समुचित [] मैं /हम घोषित करते विकास एवं शतें तथा घोषणा (मैंने/हमने समय-समय पर बैंक सहमत हूँ /सहमत हैं हम देशिया कें किसी कें कें किसी कें किसी कें में उक्त नावालिग के किसी में उक्त नावालिग के किसी में इंग्रा उसके खाते से कि मैं /हम यह समझता हूँ /सम्	पब्लिक लि	मिटेड ए. करें) टेक्ट अन्हित करें) एंटीक ो ' चिन्हित म किसी अन्य वं हमारे आपके /: गई/बँक आपक वह था समय-समय एवा हिमन्त बिरेत्य मेरे ज का भुगतान अपर भावी सन्यवहारों वे हमाराण/संज्यवहार हाकर्ता(ओं) की मुत	पएनसी सिए करें): बेंक/बैंकों रें अन्य बैंकों रें अन्य बैंकों वें अन्य बैंकों रें परनुत प्रमोश र्मां/उत्पावां ते रें दिये गये परिक् ा तब तक प्रकि	सेवा दाता से कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला श्थान शारे में जानकार्र शारे में जानकार्र हों से जिए ! जुसार प्रभार कि के अनुसार कि के अनुसार जुसार के	आयकर कन्सत्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खाने बित जमा खाने विकार हैं/चाह सुझे/हमें कॉल/सं सूल करें. (विकत्या वाह बालिग नहीं ह	ल्टेंट इंज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ <mark>झाता/सृविधा क</mark> रांत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं. न्य दें) तें करूंगा. अों) को बिना किसी व	नियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं: प्रकार जों/उत्पादों/शुल्क एवं	वकील र र प्रभारों संबंधी बैं	टॉक ब्रोकर िश क के नियमों को पर	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या ढ और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हे
यदि पेशेवर: (एक को जें डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ वोषणा (कृपया समुचिव हैं । मैं /हम घोषित करते वें वें कें एवं कें वें कें एवं कें वें सम्मान समय-समय पर बैंक स्मान हैं /सहमत बैंक की विशिष्टता हैं । मैं /हम बैंक की विशिष्टता हैं । कृपया मैं वहा वैंक की विशिष्टता हैं । कृपया मन्दी सिटी/साम । खाते का परिचालन तथा रें • कृपया मन्दी सिटी/साम । खाते का परिचालन तथा रें • कृपया मन्दी सिटी/साम । खाते का परिचालन तथा रें • कृपया मन्दी सिटी/साम । खाते का परिचालन तथा रें • कृपया मन्दी सिटी/साम • कृपया	पब्लिक लि पिक्तिक लि अार्किः कको / ि ावर संपदा त बॉक्स व हैं कि मैरे / शाखा कृषया समुि कं ब्रांचर में दी ऑ/उत्पादों त स्य पर प्रस्तुत त्य के बुव श प्रिक्ती । हो हैं कि जो श प्रकार के हो हैं कि जो	मिटेड ए. करें) व्यट विन्हित करें) प्टीक ो ﴿ चिन्हित म किसी अन्य वै हमारे आपके / यहं,बैंक आफ़ वह या समय-समय पर विभिन्न विशिष्टताः ज का भुगतान ऊपर भावी सन्यवहार वे आहरण (संव्यवहार वे गाहर्जा(ओं) की मूल	सीए करें): केंक/बैंकों रे करें): केंक/बैंकों रे करें): वेदा की वेब स प्रस्तुत प्रमोश हों/उत्पादों तः हिसो की वेब स प्रस्तुत प्रमोश हिसो की वेब स प्रस्तुत प्रमोश हिसो की वेब स प्रस्तुत प्रमोश हिसो की वेब स	सीएस / सीएस सेवा दाता ते कोई ऋण विकास के शाखाओं शाखाओं शाखाओं शाखाओं शाखाओं शाखा का स्	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स	आयकर कन्सत्यापारी ले रहे हैं. खत जमा खार् के उद्देश हैं कॉल/सं ते चाहता हूँ/चाह तुझे/हमें कॉल/सं तुल करें. (विकल् वा जाएगा. वह बालिग नहीं ह वैक को क्षतिपृत् स्त विमाही शेष	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ दाता/सुविधा क रांत उपर्युक्त खातों/सेव तते हैं. तं करूंगा. हो जाता. तें करूंगा. बनाए रखने के लिए भ	ाजों/उत्पादों/शुल्क एवं शे सहमत हैं, स्वतमक प्रभार के साविध्	वकील र प्रभारों संबंधी बैं । जमाओं का परि	टॉक ब्रोकर शि क के नियमों को पर पक्वता से पूर्व भुगत	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या अगेर समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हे
यदि पेशेवर: (एक को ज्ञांकरर डॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचिव [] मैं/हम घोषित करते वैंक एवं वैंक एवं सहमत हैं/सहमत हैं. [] मैं/हम बेंकि विशय्ताः कृपया मल्टी सिटी/साम खांत का परिचालिग के किसी मेरे इसा उसके खाते से कि मैं/हम यह समझता हूँ/सम् मैंरहम उसके खाते से कि मैं/हम यह समझता हूँ/सम् हैं तथा बैंक द्वारा समय-सम् खांत का परिचालिग के किसी मेरे इसा उसके खाते से कि मैं/हम सुविधाएं प्राप्त कर- हैं तथा बैंक द्वारा निर्धारित शाखाओं के नीटिस बोर्ड प	पब्लिक लि पिक्तिक लि पिक्तिक को पिक्तिक को पिक्तिक को पिक्तिक को लि वादर संपदा त बॉक्स व् हैं कि मैं /ह हैं कि मेरे /' शाखा कुपया समुजि के बोचर में दी अगें /उत्पादों त वाद संपर प्रस्तुत वाद चेक बुव । भी प्रकार के । भी प्रकार के । होते हैं कि जने । होते हैं कि कि सहाते हैं कि कर मर सभी एक मार सभी एक मार सभी एक मार सभी एक मार	मिटेड ए. करें) टेक्ट बन्हित करें) एंटीक पंटीक के ' चिन्हित म किसी अन्य वै हमारे आपके / उ विभिन्न विशिष्टताः जारी करें तथा मेरे जारी करें।	पएनसी सीए करें): करें): करें): करें के विकों से अन्य बैंकों के के लिए उसते हिया परित्त जा तब तक प्रति के लिए उसते विभाव के कि स्थित वे अभैसत तिमाव का जाएगा.	सीएस सीएस सेवा दाता सेवा दाता ते कोई ऋण की शाखाओं शाखाओं सिंहा देवा देवा की शाखाओं सिंहा देवा देवा की हो सेवा की हो सेवा सेवा देवा स	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला श्यान ankofbaroda बारे में जानकार्र गंफरों के लिए ग् नुसार प्रभार वस् के अबुसार कि जे वे के एवज में मैं क्रिया अपनाने वे ह्रिया अपनाने वे ह्रिया अपनाने वे	आयकर कन्सत त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खाव के कि कि कि कि कि मुझे/हमें कॉल/स् जूल करें. (विकल् मा जाएगा. बढ़ बालिग नहीं ह बँक को स्रतिपूर्ति काद दावाकता(सत तिमाही शेष मझता हूँ/समझते	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ इाता/सृविधा क होत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं. तंपर्क न करें. त्य दें) हो जाता. तें करूंगा. (ओं) को बिना किसी व बनाए रखने के लिए भ हैं कि इस संबंध में वि	नियर ग सुविधाएं हैं: प्रकार अंगे/उत्पादों/शुल्क एवं विद्यालक प्रभार के सावध्ये सहमत हूँ/हैं. न्यूनतम् सी भी प्रकार का परिवर्त	वकील र प्रभारों संबंधी बैं अभाओं का परि अमाओं का परि अमेसत तिमाही न बैंक की वेब स	टॉक ब्रोकर टिंग क के नियमों को पत पक्वता से पूर्व भुगत शेष बनाए न रख पा पईट <u>www.bank</u>	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या ड और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हें को स्थित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत हैं ofbaroda.com पर सूचित किया जाएगा त
यदि पेशेवर: (एक को जेंडॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचित [] मैं /हम घोषित करते [] मैं /हम घोषित करते वेंक एवं वेंक एवं वेंक एवं वेंक एवं वेंक वेंक हारा समय-सम्वयार बैंक हारा समय-सम्वयार केंक व्यावस्व हैं। [] कृपया बैंक हारा समय-सम्वयार केंक हारा सम्वय-सम्वयार केंक हारा सम्वयार केंक हारा निर्धारिक शाखाओं के नोटिस बोर्ड प केंमें/हम विभिन्न मियारी जम्में/हम विभिन्न मियारी जम्में	पब्लिक लि / चिन्हित आर्किं फ्र को / रि वर संपदा त बॉक्स व् हैं कि मैं /ह हैं कि में /ह हैं कि मेरे / । शाखा कृपया समुक्ति को / उत्पादों त न्य चेकतु क् । भी प्रकार के ए शप किसी ज ने हेतु बैंक द्वार के होतु बैंक द्वार कर भी एक मा सभी प्रकार के	मिटेड ए. करें) टेक्ट अन्दित करें) एंटीक ो ' चिन्हित में में किसी अन्य वै हमारे आपके / अपके	मएनसी सीए करें): बेंक/बैंकों रें अन्य बैंकों रें अन्य बैंकों रें अन्य बैंकों रें अन्य बैंकों रें विवा की वेब स प्रस्तुत प्रमोश शं/उत्पात्तां तः दिये गये परिः त तब तक प्रिके ते लिए रक्त यु की स्थिति व रें अमसत तिमाह फ्रोने के लिए रक्त	सेवा दाता से कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स् वाइट www.ba नल ऑफरों के: वा बेंक के नल अम बालन अनुदेशों तिनिधित्व करूं गं मांबालिग के करां मांवालिग के उन्हें ही शेष के अनुस् नहमत हूँ/हैं. मैं,	सुविधा नहीं में निम्नर्ला शारे में जानकार्र शारे में जानकार्र स्थान शार के लिए सु सुसार प्रसार कि के अनुसार कि के प्रवान के केया अपनाने के ह्या अपनान के ह्या अपना	आयकर कन्स्त त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खान के बाहता हूँ/चाह नुझे/हमें कॉल/स सूल करें. (विकल् मा जाएगा. वह बालिग नहीं ह के अंतिपूर्त न बाद दावाकती(सत तिमाही शेष मझता हूँ/समझते हम समझते हैं वि	ल्टेंट इंज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ द्वाता/सृविधा क र्शत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं. संपर्क न करें. न्य दें) तें करूंगा. (ओं) को बिना किसी व बनाए रखने के लिए भ हैं कि इस संबंध में वि	नियर ग सुविधाएं हैं: प्रकार जों/उत्पादों/शुल्क एवं श समत हूँ हैं: न्यूनतम, सी भी प्रकार का परिवर्त	वकील र र प्रभारों संबंधी बैं जमाओं का पि /औसत तिमाही न बैंक की वेब स	टॉक ब्रोकर एक्वता से पूर्व भुगत शेष बनाए न रख पा गईट www.bank क मियादी जमा बैंव	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या इ और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हे की स्थित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत है ofbaroda.com पर सूचित किया जाएगा त
यदि पेशेवर: (एक को जेंडॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एक को जेंडॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एक विमाण स्थ योषणा (कृपया समुचित हो	पब्लिक लि पिक्तिक लि पिक्तिक लि आर्किः कको पिक्ति ावर संपदा त बॉक्स व् हैं कि मैरे/ हैं कि मेरे/ शाखा कृपया समृि के ब्रोवर में दी ऑ/उत्पादों त मय पर प्रस्तुत न्य पर प्रस्तुत । भी प्रकार के ए गए किसी । चे तुक्क का किए गए कम्म के हुवे कैक ज्ञान कर्मा था एक मां इसते हैं सक्ति। इसते समृह इसते समृह इसते समृह इसते समृह इसते समृह	मिटेड ए. करें) वेदर विन्हित करें) प्टीक एटीक ो प्टीक म किसी अन्य वै हमारे आपके / वि हमारे आपके / वि विश्व के अापके हमारे आपके हमारे अ वा का कुराता हमारे हमारे अ वा का कुराता हमारे हमारे अ वा का कुराता व्यवसार से वि मिल विशिष्टतार वि वि सिंदी के अाफ वह वा का कुराता विशिष्टतार वि वि सिंदी के अपके वह पूर्व प्रवर्शित किया के के लिए बैंक द्वारा हि के नियाँ वा इसके / वि	सीए करें): केंक/बैंकों रे करें): केंक/बैंकों रे करें): वैद्य बैंकों रे करें): वैद्य बैंकों रे करें के विद्य समेश हिसे खे स्वित स्वित से हिसे खे स्वित से हिसे खे स्वित से हिस्सी हिससी हिस्सी हिससी	सेवा दाता से कोई ऋणः के कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स् वाइट <u>www.ba</u> नल ऑफरों के व्यायान अव्यायान अव्यायान कि दाता। विचित्त करूंग् शासालिंग के दावें ही शेष के अनुस्व का समर्पित प्रवि	सुविधा नहीं में निम्नर्ला शां में निम्नर्ला शां में जानकार मे	आयकर कन्सव त्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खाव हैं. चेत जमा खाव के के कि के कि को अतिपृति बाद दावाकर्ता हैं के को अतिपृति बाद दावाकर्ता स्त तिमाही शेष पन्नता हूँ/समझते हम समझते हैं वि हम समझते हैं वि	ल्टेंट इंज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ इाता/सुविधा क होत उपर्युक्त खातों/सेव होते हैं. संपर्क न करें. च्य दें) हो जाता. (ओं) को बिना किसी व काए रखने के लिए भ हैं कि इस संबंध में वि क जब तक कि हमारे द्व	ानियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं: प्रकार ाओं/उत्पादों/शुल्क एवं सहमत हूँ/हैं. न्यूनतम् तसी भी प्रकार का परिवर्त रा अन्यथा विनिर्देष्ट न	वकील र र प्रभारों संबंधी बैं अभारत तिमाही न बैंक की वेब स	टॉक ब्रोकर िंग पक्वता से पूर्व भुगत शेष बनाए न रख पा गईट <u>www.bank</u> क मियादी जमा बैंव स्थक समझा जाए, र	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या इ और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हे कि स्थित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत है ofbaroda.com पर सूचित किया जाएगा त कि स्थत: नवीनीकरण योजना के अंतर्गत होर कराने हेतु प्राधिकृत करता हैं/करते हैं, बैंक ओ
यदि पेशेवर: (एक को ज्वांकरर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ योषणा (कृपया समुचित [] मैं /हम घोषित करते [] मैं /हम घोषित करते वें क एवं वें क एवं वें क एवं वें क विशेष्ट सहमत हैं. [] मैं /हम बें कि विशिष्टताः कृपया मल्टी सिटी/साम खाते का परिचालन तथा शे मैं उसत नावालिग के किसी मेर द्वारा उसके खाते से कि मैं /हम यह समझता हूँ /यम मैं /हम यह समझता हूँ /यम मैं /हम यह समझता हूँ /यम मैं /हम विभन्त मिशारित शाखाओं के नोटिस बोर्ड ए मैं /हम विभन्त मिशारी ज	पब्लिक ि पिक्तिक ि चिन्हित आर्किः कको र चिन्हित आर्किः कको र चिन्हित वादर संपदा त बॉक्स व् हैं कि मैं /ह हैं कि मैरे / शाखा कुपया समुि के बोचर में दी ऑ / उत्पादों त स्व पर प्रस्तुत न्य चक बुब श सहित ब्या भी प्रकार के हैं कि ज ते हैं कि ज ता किए गए अक- स्र भी एक मा स्रोकाओं इस्की समृहः स्रिक्षाएँ /कंपनि	मिटेड ए. करें) देवट प्रिन्हित करें) एंटीक प्रेनिक सें प्रेनिक सें म किसी अन्य दें हमारे आपके / उं हमारे आपके / उं हमारे आपके हमारे का भ्रातान ऊपः आती करें तथा भरे, जना भ्रातान उपः । का भ्यान उपः । का भ्रातान उपः । का भ्रातान उपः । का भ्रातान उपः । का भ	पएनसी सीए करें): वेंक/बैंकों रें करें): वेंक/बैंकों रें करें): वेंक/बैंकों रें करें): वेंक/उ वेंकां वें वेंकां वें वेंकां वें	सेवा दाता से कोई ऋणः के शाखाओं शाखा का स् वाइट <u>www.ba</u> नल ऑफरों के श्वाखालग के नियमा वालियल करूंग तालियल कर्ंग तालियल करूंग तालियल कर्ंग	सुविधा नहीं में निम्नर्ला शासकिकावक शासक	आयकर कन्सल्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खां क्रिक्ट पर प्रदिष्ठ क्रिक पर प्रदिष्ठ क्रिक पर प्रदिष्ठ क्रिक पर प्रदिष्ठ क्रिक पर प्र	ल्टेंट इंजी आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ वाता/सृविधा क र्शत उपर्युक्त खातों/सेव ते कंरंगा. ते करूंगा. वाए रखने के लिए भ हैं कि इस संबंध में वि के जब तक कि हमारे हैं के जब तक कि हमारे ड़	ानियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं: प्रकार ाओं/उत्पादों/शुल्क एवं सहमत हूँ/हैं. न्यूनतम् सी भी प्रकार का परिवर्त रा अन्यथा विनिर्दिष्ट न । तर में संदर्भ तथा पूछताहर्था।	वकील र प्रभारों संबंधी बैं असत तिमाही न बैंक की वेब स् किया जाए तब त	टॉक ब्रोकर पक्वता से पूर्व भुगः शेष बनाए न रख पा गईंट <u>www.bank</u> करक समझा जाए, ग	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या इ और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हें की स्थित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत है ofbaroda.com पर स्चित किया जाएगा ह कि स्वतः नवीनिकरण वाहें, करते हैं, बैंक को संस्थाओं /व्यक्तियों के बीच, जैसा भी आवश्य
यदि पेशेवर: (एक को जंडॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एव निर्माण स्थ योषणा (कृपया समुचिव [] मैं/हम घोषित करते वें वेंक एवं वेंक एवं वेंक एवं वेंक की विशिष्टता समय-समय पर बैंक वें सहमत हैं. [] मैं/हम बैंक की विशिष्टता हैं. [] कृपया मत्य-सम कर कें वेंक कें प्राया समय-सम वर वेंक वें सहमत हैं. [] मैं/हम बैंक की विशिष्टता हैं. [] कृपया वेंक हात समय-स कृपया मत्टी सिटी/साम धाते का परिचालन तथा श्रं मैं उक्त नाबालिंग के किसी में से द्वारा उसके खाते से कि मैं/हम सुविधाएं प्राप्त कर- हैं तथा बैंक झा निर्धारित शाखाओं के झा निर्धारित बार्ड प् मैं/हम विभिन्न मियादी ज में/हम विभिन्न में/हम विभान मियादी ज में/हम विभान में/हम विभान मियादी ज में/हम विभान में/हम विभान मियादी ज में/हम विभान मियादी ज में/हम विभान मियादी ज	पब्लिक ि पिक्तिक ि विन्हित जाकि क को पि विद्रास पिदा त बॉक्स व् हैं कि मैं /ह हैं कि मेरे /' शाखा कृषया सुर्पा क बोचर में दी आं/उत्पादा त नम्म चेकत ब्या भी प्रकार के प्रशाद हैं कि हें हैं वि को से हा जा सहित ब्या भी प्रकार के प्रशाद हैं कि हो हैं कु वैक द्वा कर गए अन्द स्था प्रभाव कमा मा योजनाओं इसकी समूह । स्थापं, कंपनि क्तियों द्वारा व् थिकृत है.	मिटेड ए. करें) टेक्ट अन्हित करें) एंटीक ो ' चिन्हित म किसी अन्य वं हमारे आपके /: गई/बँक आफ़ वह वा समय-समय पर धा समय-समय धा स्वववहार वं ताकर्ता(अंग) की मृत ता कोई प्रभार अवा वह पूर्व प्रविशित न्यूनतम, के विष् वैंक द्वारा किंक्पनियाँ या इसके/ याँ मेरे/हमारे आवेत हेई सूचना/डाटा प्रे	मएनसी सीए करें): बेंक/बेंकों रें अन्य बैंकों रें अन्य बैंकों वें अम्य बैंकों वें अम्य बैंकों वें प्रस्तुत प्रमोश श्रां श्रांशित खाते से दिये गये परिक् ा तब तक प्रिके ते लिए स्क गु की स्थिति वं अमैसत तिमाह फ्ते के लिए स्क गाएगा. धारित अलग उनके एजेंटों कं ान संबंधी सभी सेंस करने के	सेवा दाता से कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स् गाइट www.ba नल ऑफरों के हैं शा प्रमोशनल अ शा प्रमोशनल अ शा कि के नह्यमा शालाल के दावं में, निर्धारित प्रष्टि ही शेष के अनुस् नहमत हूँ/हैं. मैं, -अलग जमार्पा तो, इस/इन आवें स्चनाओं/विव तिए आवश्यक	सुविधा नहीं में निम्नर्ला शां में निम्नर्ला शां में जानकार्र शां के लिए ए गुसार प्रभार वस् हो जब तक है बे के एवज़ में मैं क्रिया अपनाने वे होया अपनाने वे होया को सरेंग. वियों को भरेंग. वियों को भरेंगे. वेदरा/नों में दी व	आयकर कन्सल्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खां क्रिक्ट पर प्रदिष्ठ क्रिक पर प्रदिष्ठ क्रिक पर प्रदिष्ठ क्रिक पर प्रदिष्ठ क्रिक पर प्र	ल्टेंट इंजी आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ वाता/सृविधा क र्शत उपर्युक्त खातों/सेव ते कंरंगा. ते करूंगा. वाए रखने के लिए भ हैं कि इस संबंध में वि के जब तक कि हमारे हैं के जब तक कि हमारे ड़	ानियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं: प्रकार ाओं/उत्पादों/शुल्क एवं सहमत हूँ/हैं. न्यूनतम् सी भी प्रकार का परिवर्त रा अन्यथा विनिर्दिष्ट न । तर में संदर्भ तथा पूछताहर्था।	वकील र प्रभारों संबंधी बैं असत तिमाही न बैंक की वेब स् किया जाए तब त	टॉक ब्रोकर पक्वता से पूर्व भुगः शेष बनाए न रख पा गईंट <u>www.bank</u> करक समझा जाए, ग	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या इ और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हे कि स्थित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत है ofbaroda.com पर सूचित किया जाएगा त कि स्थत: नवीनीकरण योजना के अंतर्गत होर कराने हेतु प्राधिकृत करता हैं/करते हैं, बैंक ओ
यदि पेशेवर: (एक को ज्वांकरर यदि व्यावसायिक: (एक को ज्वांकरर यदि व्यावसायिक: (एक को ज्वांकरर) वोषणा (कृपया समुचित हो हो है	पब्लिक ि पिविन्हित आर्किः कार्किः कार	मिटेड ए. करें) देवट प्रिन्हित करें) एंटीक में किसी अन्य वें हमारे आपके / उ वेत बॉक्स में (/) गई/बैंक आफ बड़ था समय-समय पर विभिन्न विशिष्टताऽ जारी करें तथा मेरे, ज का भूगतान ऊपर मानी सन्यवहार मानी सन्यवहार मानी संप्यवहार देश प्रदर्शित क्यातम के लिए बैंक द्वारा कि हमारे अविक्षात्र अविष्ण अविक्षात्र अवित्य अवित्य अविष्ण अविष्ण अविष्य अविष्ण अवित्य	मएनसी सीए करें): वेंक/बैंकों रें अन्य बैंकों रें अन्य बैंकों वें वर्ष करें): वर्ष कें वर्ष कें वर्ष करें वर्ष कें वर्ष करें वर्ष सर्वाधी सभी सेस करने के एटीएम काई	सेवा दाता सेवा दाता ते कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स् शाइट <u>www.ba</u> नल ऑफरों के स्था प्रमोशनल अ बैंक के नियमा तिनिधित्व करूंग् तानिधित्व करूंग् तानानिधित्व कर्ला सुचनाओं/विव	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला sunkofbaroda बारे में जानकार्र बार के ज्वातार कि विकास की से विकास के विकास	आयकर कन्सल्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खाल पर प्रदिष्ट हैं. जेत जमा खाल पर प्रदिष्ट हों काल/से क्रांत हैं विकल्प पर प्रदिष्ट हों काल/से क्रांत हों हैं के लेता हैं हैं के लेता हैं हैं के लेता हैं हैं के से लेता है हैं के से लेता हैं	ल्टेंट इंजी आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ दाता/सृविधा क र्शत उपर्युक्त खातों/सेव ते कंरंगा. ते करंगा. जो जाता. ते करंगा. जो जो बिना किसी व बनाए रखने के लिए १ हैं कि इस संबंध में के जब तक कि हमारे हु के जब तक कि हमारे हु अंगे जैंकों/वित्तीय सं गन्य बैंकों/वित्तीय सं गन्य बैंकों/वित्तीय सं गन्य बैंकों/वित्तीय सं	ानियर तर कृषि ण सुविधाएं हैं: प्रकार ाओं/उत्पादों/शुल्क एवं सहमत हूँ, हैं. न्यूनतम् सी भी प्रकार का परिवर्त रा अन्यथा विनिर्देष्ट न । तर में संदर्भ तथा पूछताह स्थानों/ऋण ब्यूरों/एजेंदि वों/ऐसी एजेंसियों के स	वकील र प्रभारों संबंधी बैं ग जमाओं का पि र/औसत तिमाही न बैंक की वेब स् किया जाए तब ते , जैसा भी आव गर्मों (सांविधिक र्वा ।थ पंजीकृत प्रयो	पक्वता से पूर्व भुगत क के नियमों को पर शेष बनाए न रख पा गईंट <u>www.bank</u> कर समझा जाए, नेकायों (ऐसी अन्य कताओं को प्रोसेस	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या इ और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हे ofbaroda.com पर स्चित किया जाएगा त की स्वतः नवीनिकरण योजना के अंतर्गत हो कराने हेतु प्राधिकृत करता हैं/करते हैं, बैंक हो कराने होतु प्रधिकृत करता हैं/करते हैं, बैंक हो संस्थाओं /व्यक्तियों के बींच, जैसा भी आवश्य की हुई सूचना/डाटा/या उत्पाद प्रस्तुत करने हे
यदि पेशेवर: (एक को ज्वांकरर यदि व्यावसायिक: (एक को ज्वांकरर यदि व्यावसायिक: (एक को ज्वांकरा (एक का ज्वांकरा)))	पब्लिक ि पिविन्हित आर्किः कि निहित आर्किः कि निहित कि निहित कि में/ह हैं कि मेरे/' शाखा कुपया समुहि के ब्रोचर में दी अगं/उत्पादों त स्व पर प्रस्तुत स्व पर प्रस्तुत स्व चेक बुव व सहित ब्या भी प्रकार के ए गए किसते । स्व पर प्रस्तुत स्व पर प्रस्तुत स्व के बुव व सहित ब्या भी प्रकार के ए गए किसते । स्व के सा सिक्ते जा सिक्ते जा स्व के सा स्व के सा सिक्ते जा सिक्ते जा	मिटेड ए. करें) टेक्ट प्रिन्हित करें) ऐतिक प्रेतिक पंतर्यक्षित करें म किसी अन्य दें हमारे आपके / उ विभिन्न विशिष्टता करें जारी करें तथा मेरे, जका भूगतान ऊपर भावी स्व्यवहार वे भावत स्वर्ण संव्यवहार वे भावत स्वर्ण संव्यवहार वे भावत स्वयवहार वे भावत स्वर्ण संवयवहार वे भावत स्वयवहार वे स्यवहार वे स्वयवहार वे स्वय	मएनसी सीए करें): वेंक/बैंकों रें अन्य बैंकों वें करें): वेंदित की वेंब स प्रस्तुत प्रमोश गं/उत्पादों तथ हियो परिक् ग तब तक प्रति के लिए उसत चु की स्थित तिथा है आसत तिमाह कर्म के लिए राज्य जाएगा. धर्मिरत अलग उत्पादों तथ हम वेंबंधी सभी सेस करने के	सेवा दाता से कोई ऋणः की शाखाओं शाखाली सेवाओं सेवाओं सेवाओं सेवाओं सेवाओं सेवाओं सेवाओं	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला श्यान	आयकर कन्सल्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खांच क्यापारी के रहे हैं. खेत जमा खांच क्यापार पर प्रदिश्च कार्य (चिक्क क्यापार	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ हाता/सृविधा क हीत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं. संपर्क न करें. रूप दें) हो जाता. तें करूंगा. ऑ) को बिना किसी ह बनाए रखने के लिए भ हैं कि इस संबंध में दि हा जंज तक कि हमारे द्व अन्य बैंको/विक्तिय सं शन्य बैंको/विक्तिय सं शन्य बैंको/विक्तिय सं	ानियर ग सुविधाएं हैं: प्रकार अंगे/उत्पादों/शुल्क एवं सहमत हूँ, हैं. न्यूनतम् त्री भी प्रकार का पाविधि रा अन्यथा विनिर्देष्ट में रा अन्यथा विनिर्देष्ट में रा अन्यथा विनिर्देष्ट में रा अन्यथा विनिर्देष्ट में स्थानं/ऋण च्यूरों/एजेरि यों/ऐसी एजेंसियों के स	वकील र प्रभारों संबंधी बैं अभारत तमाही न बैंक तिमाही न बैंक नि वेब स् किया जाए तब त किया जाए तब त स्यां अव	टॉक ब्रोकर पक्वता से पूर्व भुगत योष बनाए न रख पा र्हट <u>www.bank</u> क मियावी जमा बैंव रखत समझा जा- नेकावों (पूर्सा अन्य	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या ह और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हें की स्थित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत हैं ofbaroda.com पर सूचित किया जाएगा त होन कराने हेतु प्रधान करता हैं, बैंक और से हो हो हैं कें संस्थाओं / प्रधानित करता हैं करते हैं, बैंक औं संस्थाओं / प्रधानित कें कें तु सा भी आवश्य की हुई सूचना/डाटा/या उत्पाद प्रस्तुत करने हें
यदि पेशेवर: (एक को जंडॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एक निर्माण स्थ घोषणा (कृपया समुचिर [] मैं /हम घोषित करते [] मैं /हम घोषित करते [] मैं /हम घोषित करते वंक एवं वंक एवं विवास समय-समय पर बैंक वेसहमत हूँ /सहमत हैं । [] कृपया बैंक हारा समय-सम्य-सम्य कर्या के हारा समय-सम्य-सम्य कर्या के हारा समय-सम्य कर्या के हारा समय-सम्य कर हैं तथा बैंक हारा सम्य कर हैं तथा बैंक हो समूह स्हो या ठीक हो या ऐसे व्यविनमय/बांटने के लिए अपरिचालनीय जमा खाता में ज मैं /हम ईबेट कार्ड के रूप खाता खोलने के आवेदन जा खाता के जिले के अवेदन जा खेलने के आवेदन जा सम्रोवित कार्य कर खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कार्य कर खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खाता स्वास सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खोलने के आवेदन जा सम्रोवित कराई के रूप खाता खाता स्वास सम्रोवित कराई के रूप खाता खाता स्वास सम्रोवित कराई के रूप खाता खाता स्वास सम्रोवित स	पब्लिक ि पि चिन्हित जाकिं क को पि वार संपदा त बॉक्स व् हैं कि मेरे / हैं हैं कि मेरे / हार्या कृपया सुप्ति के ब्रोचर में दे आं/उत्पादों त न्य चेक बुव वार संपदा त वॉक्स व् हों हैं कि के सेरे / हार्या कृपया सुप्ति के ब्रोचर में दे आं/उत्पादों त न्य चेक बुव वार्य चेक बुव वार्य चेक बुव वार्य चेक वार्य स्वार्य हें कि जार के हे हु बैंक द्वार स्वार्य हिस्सी हसकी समृह र स्वार्य हसकी समृह र स्वार्य हसकी समृह र स्वार्य वार्य वार वार्य वार वार्य वार वार्य वार	मिटेड ए. करें) टेक्ट अन्हित करें) एंटीक तो ' चिन्हित म किसी अन्य वं हमारे आपके / उ गई/बैंक आपके / उ गई/बैंक आपके व विभाग विम्न विमय अम्मय-समय पर विभिन्न विमयवहारां व जाती करें तथा मेरे, ज का भुगतान ऊपर भावी सच्यवहारां व जाती करें तथा मेरे, ज का भुगतान ऊपर भावी सच्यवहारां व जाती कों तथा मेरे ज का भुगतान ऊपर भावी सच्यवहारां व जाती कों तिक्या के लिए बैंक द्वारा नि कंपनियाँ या इसके / या कें स्च्ना/डाटा प्रे नेवाले डेबिट सह स्वित व्यक्ति के नाम्	मएनसी सीए करें): बेंक/बैंकों रें अन्य बैंकों रें अन्य बैंकों है अन्य बैंकों है अन्य बैंकों है अस्तुत प्रमोश ऑ/उत्पादों तर हिये गये परिः ज तव तक प्रिके ते तिए रु जा तव तक प्रिके हिए रु जाएगा. धिरित अलग उनके एजेंटों के तत्व ते के एटीएम कार्ड पर एटीएम स	सेवा दाता सेवा दाता ते कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स् शाइट www.ba नल ऑफरों के शा प्रमोशनल अ । बैंक के नियमा ग्रांतिन अनुदेशों तीनि अनुदेशों तीनि अनुद्धां ही शोष के अनुद्ध महमत हुँ/हैं. मैं, —अलग जमार्पा तो, इस/इन आ श्चानाओं/विद्धां हेतु व समझ ली हैं. ह डेबिट काई उ	सुविधा नहीं में निम्नलि श्वान शां में जानकार्र गुंफरों के जिए १ नुसार प्रभार वह के अनुसार किः वे के एवज़ में मैं क्रिया अपनाने वे क्रिया अन्या वे के एवज्ञ में मैं क्रिया अन्य वै मैं/हम उक्त नि जारी करने के वि	आयकर कन्सत्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खाव हैं. खेत जमा खाव हैं विकल्प पर प्रदिश्य हैं जा जाएगा. जा जाएगा. जा जाएगा. जा जाएगा. जा जा जा हैं। हव के को क्षेतिपृदि हैं के को क्षेतिपृदि हैं विकल्प हों हैं पूचना के संबंध हैं सूचना के संबंध ते अपने बीच या के प्राधिकृत कर जा	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ दाता/सृविधा क है कैं ते करूंगा. (ओं) को बिना किसी व बनाए रखने के लिए ध् हैं कि इस संबंध में वि क जब तक कि हमारे द्व ध में उनके विवेकाधिय ध में उनके विवेकाधिय ध मंं उनके विवेकाधिय सानों/ऋण ब्यूरों/एजेरि ।, उनमें समय-समय फ ते हैं. मैं पुष्टि करता हैं	नियर ग सुविधाएं हैं: प्रकार जों/उत्पादों/शुल्क एवं सहमत हूँ/हैं. न्यूनतम, सी भी प्रकार का परिवर्त रा अन्यथा विनिर्दिष्ट न गर में संदर्भ तथा पुछताह स्थानों/ऋण ब्यूरों/एजेंरि यों/ऐसी एजेंसियों के स	वकील र र प्रभारों संबंधी बैं प्रभारों संबंधी बैं अभारों कि कि विवाही के के के वेब स् किया जाए तब त प्रभारों सांविधिक प्रभा स्वां/सांविधिक प्रभा क्यें जाने वाले प्रभा क्यें जाने क्यें जाने वाले प्रभा क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जा क्	टॉक ब्रोकर एक्वता से पूर्व भुगत होष बनाए न रख पा र्हट <u>www.bank</u> क मियादी जमा बैंव स्थक समझा जाए, ; केकायों /ऐसी अन्य कताओं को प्राप्ते स	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या इ और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हें लीध्वित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत हैं लीध्वित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत हैं लीधवात के अंतर्गत होंग्कराते हैं, बैंक ओं संस्थाओं /व्यक्तियों के बीच, जैसा भी आवश्य की हुई सूचना/डाटा/या उत्पाद प्रस्तुत करने हैं लिए सहमत हूँ/हैं. मैं/हम बैंक ऑफ बड़ौदा व
यदि पेशेवर: (एक को जेडॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एक को जेडॉक्टर यदि व्यावसायिक: (एक विमाण स्थ योषणा (कृपया समुचित हो	पब्लिक ि पिक्तिक ि पिक्तिक ि पिक्तिक ि कि को रे रि वावर संपदा त बॉक्स व है है कि मेरे / रि है कि के मेरे / रि है कि के मेरे / रि हुपया समुि के ब्रोचर में दी ऑ/उत्पादों ते स्वापर प्रस्तुत है कि ज ने हे वैंक द्वा किए गए अक्स स्वापर प्रस्तुत है कि ज ने हे वैंक द्वा किए गए अक्स स्वापर प्रस्तुत हिम्म विना श्वा स्वापर किये	मिटेड ए. करें) पेवट प्रिक्त करें) पेवट प्रिक्त करें) पेति प्रिक्त करें म किसी अन्य वं हमारे आपके / उं हमारे आपके / उं हमारे आपके किसा अस्य के स्वाप्त के स्व	मएनसी सीए करें): बेंक/बैंकों रें अन्य बैंकों रें अन्य बैंकों है अन्य बैंकों है अन्य बैंकों है अस्तुत प्रमोश ऑ/उत्पादों तर हिये गये परिः ज तव तक प्रिके ते तिए रु जा तव तक प्रिके हिए रु जाएगा. धिरित अलग उनके एजेंटों के तत्व ते के एटीएम कार्ड पर एटीएम स	सेवा दाता सेवा दाता ते कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स् शाइट www.ba नल ऑफरों के शा प्रमोशनल अ । बैंक के नियमा ग्रांतिन अनुदेशों तीनि अनुदेशों तीनि अनुद्धां ही शोष के अनुद्ध महमत हुँ/हैं. मैं, —अलग जमार्पा तो, इस/इन आ श्चानाओं/विद्धां हेतु व समझ ली हैं. ह डेबिट काई उ	सुविधा नहीं में निम्नलि श्वान शां में जानकार्र गुंफरों के जिए १ नुसार प्रभार वह के अनुसार किः वे के एवज़ में मैं क्रिया अपनाने वे क्रिया अन्या वे के एवज्ञ में मैं क्रिया अन्य वै मैं/हम उक्त नि जारी करने के वि	आयकर कन्सत्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खाव हैं. खेत जमा खाव हैं विकल्प पर प्रदिश्य हैं जा जाएगा. जा जाएगा. जा जाएगा. जा जाएगा. जा जा जा हैं। हव के को क्षेतिपृदि हैं के को क्षेतिपृदि हैं विकल्प हों हैं पूचना के संबंध हैं सूचना के संबंध ते अपने बीच या के प्राधिकृत कर जा	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ दाता/सृविधा क है कैं ते करूंगा. (ओं) को बिना किसी व बनाए रखने के लिए ध् हैं कि इस संबंध में वि क जब तक कि हमारे द्व ध में उनके विवेकाधिय ध में उनके विवेकाधिय ध मंं उनके विवेकाधिय सानों/ऋण ब्यूरों/एजेरि ।, उनमें समय-समय फ ते हैं. मैं पुष्टि करता हैं	नियर ग सुविधाएं हैं: प्रकार जों/उत्पादों/शुल्क एवं सहमत हूँ/हैं. न्यूनतम, सी भी प्रकार का परिवर्त रा अन्यथा विनिर्दिष्ट न गर में संदर्भ तथा पुछताह स्थानों/ऋण ब्यूरों/एजेंरि यों/ऐसी एजेंसियों के स	वकील र र प्रभारों संबंधी बैं प्रभारों संबंधी बैं अभारों कि कि विवाही के के के वेब स् किया जाए तब त प्रभारों सांविधिक प्रभा स्वां/सांविधिक प्रभा क्यें जाने वाले प्रभा क्यें जाने क्यें जाने वाले प्रभा क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जा क्	टॉक ब्रोकर एक्वता से पूर्व भुगत होष बनाए न रख पा र्हट <u>www.bank</u> क मियादी जमा बैंव स्थक समझा जाए, ; केकायों /ऐसी अन्य कताओं को प्राप्ते स	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या ह और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हें की स्थित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत हैं ofbaroda.com पर सूचित किया जाएगा त होन कराने हेतु प्रधान करता हैं, बैंक और से हो हो हैं कें संस्थाओं / प्रधानित करता हैं करते हैं, बैंक औं संस्थाओं / प्रधानित कें कें तु सा भी आवश्य की हुई सूचना/डाटा/या उत्पाद प्रस्तुत करने हें
यदि पेशेवर: (एक को ज्वां स्थाय स्थाय स्थाय स्थाय स्थाय स्थाय समुचिर हो से हम घोषित करते हैं कि एवं के सहमत हैं , सहमत है	पब्लिक ि पिविन्हित जाकि का जाकि का जाकि का निक्रम व त बाक्स व है कि मैं /ह है कि मेरे /' शाखा कुपया समुहि के बोचर में दी अगं/उत्पादों त मय पर प्रस्तुत मय पर प्रस्तुत मय पर प्रस्तुत हि के जो ने ए गए किसते । सार्वोक कुष्क ए गए किसते । सार्वोक माहि किये पा अक्स सम्मा संका माहि किये पा अक्स सम्मा संका माहि किये जा प्रयोग को शाहि का देते हैं कि न	मिटेड ए. करें) देवट प्रिन्हित करें) पेटीक प्रिन्हित करें) प्रेटीक प्रिक्ति प्रेटीक में किसी अन्य दें हमारे आपके /ऽ विभिन्न विशिष्टताऽ जारी करें तथा मेरे, ज का भूगतान ऊपर भावी स्व्यवहारां वे मालती(ओं) की मृत त निर्धारित न्यूतनम् कोई प्रभार अवा व इप्हें प्रविशित किया के तिए यें के द्वारा ि के तिए यें के द्वारा ि के तिए यें के द्वारा ि के विश्व के विश्व के विश्व के तिए यें वो मेरे (हमारे आवे कोई भूवना/डाटा प्रे नेवाले डेबिट सह सेत करने संबंधी नि खित व्यक्ति के नाम जिशेर अपरिवर्तनीय डेबिट कार्ड का प्रयो एगी.	मएनसी सीए करें): करें करें): करें	सेवा दाता सेवा दाता सेवा दाता ते कोई ऋणः की शाखाओं शाखा का स्वावा ताइट www.ba नल ऑफरों के शा प्रमोशनल अ बैंक के नियमा शालन अनुदेशों तेनिधित्व करूंग् ताबालिग के दावं में, निधारित प्रिः ही शेष के अनुस् नहमत हूँ/हैं. मैं, असर।इना प्रावा सूचनाओं विव लिए आवश्यक हेतु व समझ ली हैं. हा डेबिट काई देविनमय नियंत्रण	सुविधा नहीं i में निम्नर्ला स्थान सांकितियान सांकि	आयकर कन्सल्यापारी ले रहे हैं. खेत जमा खांच हुई हो कांव / स्व करं. (विकल्प पर प्रदिश्च कांव / स्व क्या कांव / स्व कांव हा बाला - नहीं हैं बैंक को क्षितपूर्त कांव दावाकतीं (सत तिमाही शेष मझता हूँ / समझते हैं वि हं अपने बीच या कांव / वित्तीय संस्थ कांव या व शतीं तथा कांव या कांव / वित्तीय संस्थ कांव या व शतीं तथा कांव या कांव / वित्तीय संस्थ कांव या व शतीं तथा कांव या कांव / वित्तीय संस्थ कांव या व शतीं तथा कांव या कांव / वित्तीय संस्थ कांव या व शतीं तथा कांव या कांव / वित्तीय संस्थ कांव या व शतीं तथा कांव / वित्तीय संस्थ / वित्तीय संस्य / वित्तीय संस्थ / वित्तीय संस्थ / वित्तीय संस्थ / वित्	ल्टेंट इंर्ज आर्म्स डीव ते और/अथवा ऋ हाता/सृविधा क होत उपर्युक्त खातों/सेव ते हैं. संपर्क न करें. रूप दें) हो जाता. तें करूंगा. (ऑ) को बिना किसी हैं बनाए रखने के लिए १ हैं कि इस संबंध में वि क जब तक कि हमारे हु ध अंन्य बैंकों/वित्तीय सं गनों/ऋण ब्यूरों/एजेंसि स्वारं के समय-समय ए ते हैं. मैं पुष्टि करता हूँ होई बैंक द्वारा निर्धारित सैर ऐसा न होने की दश	ानियर ग सुविधाएं हैं: प्रकार अक्षेत्र अभार के साविध्या सहमत हूँ, हैं: न्यूनतम, सहमत हूँ, हैं: न्यूनतम, सी भी अन्यश्व विनिर्देष्ट ने कर्म मं सदर्भ तथा युकताह स्थानों , त्रण क्यूरों / एजेरि यों / ऐसी एजेंसियों के स	वकील र र प्रभारों संबंधी बैं प्रभारों संबंधी बैं अभारों कि कि विवाही के के के वेब स् किया जाए तब त प्रभारों सांविधिक प्रभा स्वां/सांविधिक प्रभा क्यें जाने वाले प्रभा क्यें जाने क्यें जाने वाले प्रभा क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जाने क्यें जा क्	टॉक ब्रोकर एक्वता से पूर्व भुगत होष बनाए न रख पा र्हट <u>www.bank</u> क मियादी जमा बैंव स्थक समझा जाए, ; केकायों /ऐसी अन्य कताओं को प्राप्ते स	अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) खाता संख्या खाता संख्या इ और समझ लिया है तथा मैं/हम इन्हें मानने हें लीध्वित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत हैं लीध्वित में प्रभार अदा करने हेतु सहमत हैं लीधवात के अंतर्गत होंग्कराते हैं, बैंक ओं संस्थाओं /व्यक्तियों के बीच, जैसा भी आवश्य की हुई सूचना/डाटा/या उत्पाद प्रस्तुत करने हैं लिए सहमत हूँ/हैं. मैं/हम बैंक ऑफ बड़ौदा व

(द्वितीय आवेदनकर्ता)

निवासीय पता

द्वितीय आवेदक

प्रथम आवेदक

तृतीय आवेदक

(तृतीय आवेदनकर्ता)



वर्तमान खाताध	धारक (कम	से कम ह	छ: मही	ने पुरान	ने एवं	केवाई	सी अनुप	गलन र	व्राता)	से परिच	ाय									
नाम:													ख	व्राता सं.:						
पता:													र	व्राता खोल	ने की	तारीख:				
														ाहक आई						
पिन:			ई−1	मेल:										ाखा का न						
टेलिफोन सं.:				ग्राइल:					फैक्स							चित बैंव	ь/चाल र	वाता/कैश	क्रेडिट/	'ओवर ड्राफ्ट
मैं/हम यह प्रमापि	————— ग्रेत करता/क	रती हूँ /हैं			ो /श्री।	उती /स	 थ्री										/		,,,,,,,	को
पिकले	माह / तर्ष ग	रे <i>शू</i> वे त्यक्तिग	ात ऋष	मे जान	'/ या स्ता है	/जानने	ੈਂ ਵੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਧ	 ਇਟੇ ਕਹਾ	 ਜ ਵੱ/ਰ	 हाते हैं वि	 F Jailai	खोलने के	रम् आ	 ਕੇਟਜ-ਪ੍ਰਤ	में उहि	 लेगिवत	उनका ल	ातमारा एट	i บลา บิ	 री/हमारी पूर्ण जानकारी एवं
विश्वास के अनुस	_ गाए/ अन \ गार मही है	त ज्यायताः	1(1 <1	(1 911-1	ıvıı ç	<i>Į</i> •11·1(1	0 43	1-0 4/11	اا وي ۱	7(1 6 14	i Gilii	GICIT 47	2(1 011	941 14	.1 510	Cliga	0.1411 94	14(114 4	1 1/11 1	(1) (0.11/1 1/21 1/11/11/11 / 4
विस्वारा का जातुर	117 (101 0.																			
दिनांक:																			(परिचयकर्ता के हस्ताक्षर)
खाते का शीर्ष																				
खाता सं.																			शा	खा
परिचालन हेतु	निर्देश													· ·			1			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	नाम									ਰਧ	्ना हस्ता	थार						U	गेटोग्राफ
		गाम									17	(41 644116	दार						۹	ncixi47
																				1.
																			ह	ाल का फोटो
ग्राहक आईडी																				
																				2.
																			ह	ाल का फोटो
ग्राहक आईडी																				
																				3.
																			ह	ाल का फोटो
ग्राहक आईडी																				
नाम:										ह	स्ताक्षर:							(न.ह.	.स.:)
90	के अधिकार्र	ो, जिनकी	उपस्थि	ति में ह	हस्ता	प्तर किये	गये													
									फा	र्म डीए-	1 नामां	कन फार्म								
बैंक जमा-राशि	ायों के संबंध	। में बैंकिं	ग विनि	विम अ	गधिनि	नेयम. 1	।949 क <u>ी</u>	धारा 4						नी (नामां	कन) ी	नियम.	1985 वे	2(1) के	तहत ना	मांकन
मैं/हम						,														भेरे/हमारे नाबालिग की मृत्यु
होने पर, जमा-रा	कि जिसके	विवाण =	ੀੜੇ ਇਹ	Š	हैं त		 ਕਟੀਟਾ				VI -11 1VI	,		वा द्वारा लं			GV 1.	(((() (-) ()	/1-10	17,0111 11-111 111 213
लग वर, जना-रा	· ·			1.160	, чч	v ∨11;10 '	ini						<iii< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></iii<>							
		जमा रार्ग	श											-	ामिर्ता					
जमा राशि	20	<u>.</u>		अति	रिक्त	विवरण	.					_				जमाव	र्ता के स	াথ		यदि नामिती नाबालिग
का प्रकार	विशिष	न्ट नंबर		(य	दि को	ाई हो)		ना	मिती क	ा नाम		नााम	ती का प	ाता		संबंध (यदि कोई	हो)	आयु	है तो उसकी जन्म-तिथि
			_																	#
	I																			
			2 2' .				•													
चूंकि इस तारीख														(न	ाम, प	ता व अ	ायु) को,	नामिती की	ा नाबालि	गगता के दौरान मेरी/हमारी/
नाबालिग की मृत्	यु की स्थिति	में नामिती	ो की ओ	ोर से ज	ामा−र	तशि को	प्राप्त क	रने के दि	नए प्राप्ति	धेकृत कर	रते हैं.									
पासबुक/खात	गविकाणी	/ m= = }	2000 -	ئىد ئ	ਜ ੁਰ ੀ -	क्या तर	n = 11	п	<u> ਦੱ</u> /-	ਗ / ਨ ਵ	ारा कि	कला व		_{रेन क्यें} ।					T011-	
नालथुक/खात	ताप्रवरणा/	एफ डा	जार म	7 711+	नता	जानी∙	न वाहि।	ζ	۰ /۱۶۰					,						:
										#	‡ यदि ना	मिती नाब	ालिग न	हो तो का	ट दें.				तारीख	a:
[®] साक्षी का हस्त	יי יייב נגאור	ਜੰ ਧੂਰਾ									ज्ञाम	कर्ताओं ने	k erang	 भ्रर/अंगूठा	चिवार					
- साला का हस्स	तापार, गाम ए	,न नता									जना	ानगा ा	11 64411	ন≺/ অণু⊘।	iगरा।	1				
											+									
1											1									

[|] * जहाँ नबालिग के नाम से जमा राशि रखी जाती है, नाबालिग की ओर से ऐसे व्यक्ति द्वारा नामांकन हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए जो इसके लिए विधिक रूप से पात्र हैं. @ जमाकर्ता/कर्ताओं के हस्ताक्षर/हस्ताक्षरों पर एक व्यक्ति का साक्ष्य होना चाहिए, जमाकर्ता/कर्ताओं के अंगूठा निशान/निशानों पर दो व्यक्तियों का साक्ष्य होना चाहिए.



विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

नमूना हस्ताक्षर संख्या

		फोटो पहचान				पते के पहचान संबंधी प्रमाण	Γ
	1	2	;	3	1	2	3
स्तावेज का प्रकार							
स्तावेज नंबर							
गरीकर्ता प्राधिकारी							
ारी करने की तारीख							
गारी करने का स्थान ।धता की अवधि							
घता का अवाघ					<u> </u>		
		फार्म 60/61 ((पैन नम्बर न	रखने वाल	ों द्वारा भरा जाए)		
गर्म 60 या आप कर निर्धारिती है			नहीं		यदि हाँ तो		
		टर्न फाइल की गई थी :					
गर्म 61							
एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ वि	ती केवल कृषिगत आय ह ह मेरी आय का स्त्रोत कृषि	हो और कोई ऐसी आय न हो जि षे है और मुझे अन्य किसी भी उ	स पर आयकर गय पर, यदि व	प्रभारित व होई हो, अ	जे जाती हो. ायकर अदा नहीं करना है.		
ात्यापन			ਧਕਕ ਕੁਧ	र स्रोक्षाम ज	ਹੁਤਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ भੀ ਤੁਆਂਸਾ ਸਮਾ ਹੈ	े बर भी मर्बोटम बार मर्ब बार	स्मा के अस्माम सन्ध है
र्व 20	की	तारीख _	एतद् क्षार		्राता हू कि जो मा दशाया गया है (दिन) को सत्यापित	है वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानव	गारा क अनुसार सत्य ह.
नांक :		स्थान :		_		घोषणाकर्ता र	के हस्ताक्षर
		आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए ज (निम्नलिखित दो सूचियों के	नाने वाले केव प्रत्येक से को	गईसी पह ाई एक क	वान संबंधी दस्तावेज/कागज गजात जो बैंक को स्वीकार्य	ात हो)	
(सूची – I /हाल का फोटो युक्त प	\			(112 2 - 111 00	सूची - ॥ में नवीनतम/हाल के दस्तावेज	-\
. पासपोर्ट	/ हाल का फाटा युक्त प	ह्यान संबंधा दस्तावज <i>)</i>		1. पास	<u> </u>	म नवानतम/हाल क दस्तावज	1)
. फोटोग्राफ के साथ ड्राइन्	 व्रंग लाइसेंस				्र दर्शाता ड्राइविंग लाइसेंस, म	तिदाता पहचान पत्र	
. मतदाता पहचान पत्र				3. कि	सी भी सेवा प्रदाता के द्वारा ज	नारी उपयोगिता बिल (2 मही	ने से अधिक पुराना नहीं)
पैन कार्ड / फॉर्म 60				4. संप		द	•
. आधार / नरेगा							
. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट	र (एनपीआर) द्वारा ज	 ारी पत्र				 1त्र	
	, , ,		ज सत्यापित	7 a	ादित मदिलाओं के मामले मे		 टोगा
प्रमाण पत्र जो विधिवत			4 ((4114)	7. (44	1116/1 1116/11311 1/114/114	नार्य चर्चर चर्या चर्सा रचाचराच	61.11
						. – – – – – – -	
1		6	र्गालय के	प्रयाग व	,		
ह. स. 1. आवेदक का साक्षात्व	जर लिया गया और उद्देश्य	विवरण			प्राधिकृत स्ट	ाफ का नाम	हस्ताक्षर
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	गानवारित किया गया गों का मूल प्रति के साथ सत्याप	- 				
	क प्रमाण सबधा दस्तावर ग्रानकर्ता को धन्यवाद पत्र		न ।कया गया				
	गनकता का घन्यवाद पत्र गाने संबंधी जोखिम व						
() न्यून () मध्यम		गणकरण					
वाई सी प्रमाण-पत्र:	.,						
श्री /श्रीमृती /क		शी / शीमनी /				मैंने प्रस्तुत दस्तावेजो की जांच	का ली है और एप्टिकान है
े अ। अभिता / तुः		्याता खोळचे वाला /	उ ⁷ · ——— ठालों मे ट्यक्ति	வசு கரு ப		कि केवाईसी मापदंडों का पूरी व	नर सा है जार नुगय नरसा हू तरह से पालन किया गया है.
क केवाईसी मानदंडों का पूर्णत) क) परिचयकर्ता स्वयं शार	: अनुपालन किया गया 3 वा में आये थे	श्री/श्रीमती/ खाता खोलने वाला/ गौर यह भी पुष्टि करता हूँ कि –	41(11 (1 -41(1	71(1 (-1 (17111 3111 40 J1 5 47111 Q		
अथवा			£ 2_				
ख) पारचयकता स्वय शार भ परिचयकर्ता के टाउरण र्र	वा म नहा आये परन्तु उन रे जांन कर की गई है २००	ासे लिखित पुष्टि प्राप्त कर ली ग : उसका/उनका खाता 6 माह से	गइ ह. अधिक गणण	ਵੈ ਅੀਰ ਤਾਂ	हे स्वार्त में भी बेह्नाईमी मान्डंडों	 शाखा प्रमुख/संयुक्त प्रबंधक/	
) पारचयकता क हस्ताक्षर क का पालन किया गया है.	। जाच कर ला गइ ह आर	. उसका/ उनका खाता ७ महि स	जायक पुराना	रु आर उन	क खात म मा कवाइसा मानदडा	प्रबंधक का हस्ताक्षर	
ल वरा । नग्ना अना छः						नमूना हस्ताक्षर संख्या	
						नमूना हस्ताक्षर संख्या तारीख:	
						1 414 14q ·	

तारीख:



दिनांक : ___/___ (तारीख/महीना/वर्ष फार्मेट में)

			इटरनेट बैकिंग	हेतु आवेदन प	त्र		
मैं / हम अनुरोध करते	हैं कि मेरा / हमारा ३	भावेदन इंटरनेट बैंकिंग सुविध	ग के लिए पंजीकृत ^ह	करें और मेरे / हमार <u>े</u>	खाते को आप	मकी शाखा /	अन्य शाखा के पास निम्नलिखित अधिकार के
साथ लिंक करें.	(क) इंटरनेट	ँ बैंकिंग सुविधा –> लेन देन	अधिकार *	केवल देखने के	लिए *	(* किसी	एक को टिक ✓ करें)
		् विधा —> एनइएफटी / ३		टैक्स का भुगतान		लेन देन अधि	कार लिया है तो टिक करें)
मोबाईल पर लेन देन चे		हाँ / ना		दनरा नग दुनरान	(419	(11 41 511	
प्रयोक्ता की पसंद की	आई डी (कम से व	ज्म 6 अक्षरों वाली)	1		2		3
(प्रयोक्ता आई डी उपल							
इंटरनेट, बैंकिंग के लिए	किये जाने वाले वर्तम	गन खातों का विवरण 					
संयुक्त खाताधा	रक का नाम		14 अंकीय	खाता संख्या			परिचालन का प्रकार
प्रयोक्ता के दायित्व:							
१. प्रयोक्ता का बड़ौदा	कनेक्ट (रिटेल) में वि	ьसी समय कहीं भी स्वगत हैं	. तथापि सावधानी वे	न तौर पर सुरक्षा के नि	लेहाज से उसे र	प्तार्वजनिक उप	योग के पीसी के उपरोक्त से बचना चाहिए. बैंक
		र लॉगइन करते समय बदल					
२. प्रयोक्ता को उसका	नाम और पासवर्ड गो	पनीय रखना चाहिए. प्रयोक्ता	। द्वारा इस शर्त को तो	ड़ने पर होने वाली वि	कसी हानि के वि	लए बैंक जिम्मे	दार नहीं होगा. प्रयोक्ता को चालू समय में अपने
कंम्प्यूटर को खुला	नहीं छोडने के लिए र	प्रावधान किया जाता है.					
कृपया यूजर आईडी औ	र पासवर्ड निम्नलिखि	त नाम पर जारी करें					
•		गतों में दी जाती है जहाँ परि	ग्रस्य स्व प्रस्ता गि	गन्धियन में मे एक	कोर्ट टोना है		
•		ताता न दा जाता ह जहा पार ३) कोई एक अथवा उत्तरजी			यगइ लाता लः		
	•	२) काइ एक अथवा उत्तरजा करने हेतु खाते के प्रत्येक हस्		•	गैर गारस्ट अ	नका नेना ना	ि गा
जडादा इ-जाकरा रिटल	सपाञा का एक्सस व	मरन हतु खात क प्रत्यक हर 	तादारकता क पास उ	। एक यूजर आइडा उ	गार पालपङ ज	पर्प हाना पा	164
खाताधारव	क का नाम	ग्राहक अ	ाई डी	अलग यूज	रआई डी/पा	सवर्ड	हस्ताक्षर
					हाँ / ना		
					हाँ / ना		
					हाँ / ना		
अन्य नियम व शर्तें अं	र घोषणा						
मैंने/हमने उक्त खाते सेव	गएँ/उत्पाद/फीस/प्र	भार जिन्हें बैंक की वेबसाइट	www.bankofk	oaroda.com प	र डिस्पले किय	ा गया/ब्रोचर	में दिया है के परिचालन के नियमों को पढ़ और
		य-समय पर परिवर्तनों से व				,	•
• मैं पुष्टि करता हूँ वि	ь मैं एकमात्र खाताध <u>ा</u>	रक हूँ अथवा डेबिट कार्ड वे	न साथ लिंक खाते क) अकेले परिचालन	करने के लिए व	व्रांछित अधिदेः	श है. मैंने/हमने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली
है. मैं/हम समझते	हैं कि मुझे/हमें डेबिट	. कार्ड जारी करने के बाद बैं	क ऑफ़ बड़ौदा का व	वर्तमान एटीएम कार्ड	मेरे खाता के र	प्ताथ लिंक स्टैं	ड एलोन एटीएम कार्ड बंद कर दिया जाएगा.
 मैं/हम एतद्द्वारा बैं 	क को, बैंक के उत्तर	धिकारी और समनुदेशितिय	ां को किसी/सभी दा	वों, कार्यवाहियों दंड	हों जो कभी बैंव	क के विरुद्ध जं	ो बैंक द्वारा किसी शर्त के अनुपालन न होने के
		- 1	• (मारे खाते में प	रिचालन बैंक	द्वारा रखरखाव अथवा बड़ौदा करेक्ट के माध्यम
		के समुचित विधि से संचारि					
•							/हम वचन देते हैं कि इस प्रकार की कोई सूचना
		ा सहमत है. वचन देत है कि लिए बैंक पर कोई दावा नर्ह		(/हमारं द्वारा लागइन	। आईडी को वि	हसी और की व	बताने से होने वाली हानि के लिए जिम्मेदार नहीं
	•				r 	. 4	
		ं अवयस्क को प्रतिनिधित्व िन्स्री भी सरो ने सिन्स भी					
म अवयस्क खाताः	वारक द्वारा किय गय	किसी भी दावे के विरुद्ध मेरे	/ हमार द्वारा किसा भ	। आहरण/लन-दन	क । ୯୯ बके व	ा क्षातपूति क	रूगा.
					_		
प्रथ	म आवेदनकर्ता		द्वितीय	आवेदनकर्ता			तृतीय आवेदनकर्ता



Branch :				4	ACC	OUN	1 (PE	:NIN	G	FUR	IVI F	OK <u>I</u>	<u>ND</u>	IVI	<u>DUA</u>	<u>LS</u>				Date	e : <u>DL</u>) / IV	IIVI /	YYYY
Account No. :											Br	anch	ALPI	ΗA								Sche	me C	ode	
				T	Τ		Т							Π		T			Т					Τ	
I/We request you to oper	n my/oı	ur depo	osit a	ccou	nt with	your l	orano	ch/b	ank as	s ur	ıder: (Tick (✓) rele	evant	t typ	e of a	cour	nt)							
Type of Account				S	chem	e Nam	е					Ту	pe of	Acco	ount	t				Scl	neme	Αςςοι	ınt		
Savings Bank A/c.												_	m De		A/c										
Current A/c.													ner A/												
FULL NAME, in CAPITA	AL Lett	ters (In	the	order 	of Titl	e (Mr./	Mrs. 	/etc 	. first, i	mic	dle, a	nd las 	t nam I I	e, lea 	avin 	ig a sp 	ace t 	oetw 	een 	words) 			1 1	M/F/TG
1																	<u> </u>								
2 T T L E																									
3 T T L E																									
Date of Birth	dd/m	m/yyyy	y)			PAN	(if no	ot av	ailable	e, p	ease	attach	Form	60/6	61)				Custo	mer II) (if a	ny exis	sting)		
2	i						Ī	Ì	İ			ĺ	ĺ		Ī				İ					Ì	
3	i						i	i			Ī				İ				T		İ		i	Ī	İ
Occupation*	<u> </u>	State	116**		Δr	nnual I	ncom	 10 (i	n ₹)		Re	lation	shin v	vith 1	Ist Δ₁	pplicar	nt		Nat	ionalit				ner's	
1		Otati				iiiuai i	10011	10 (1			110	Jatioi	ioriip v	VICII	' ^	pplical			IVAL	Jonani	у	Hu	ısban	d's N	ame
2				-																					
3																									
* Please choose from the	he follo	wina.																							
Salaried		Employ	/ed		Pro	ofessi	onal			Π	Politic	ian			Т	Hous	sewif	e		Stu	dent		Defe	ence	Staff
Retired		Broke			Ag	ricultu	re				Antiqu	ıe De	aler			Arms	Dea	aler		Bus	siness	3	Othe	er	
** Please choose from			(If S					E.	C. Nu	mb		, l <u>-</u>						_							
	. Citize				Staff (I	EC No						.) E	x-Sta	ıff (E	C N)			oner		NRI		er G	eneral
Name of the Guardia			min	or):									- 0			1						tick c			
(Attach proof for minor													F &	NG		M &	NG		Leg	aı*	D	e facto)	Othe	ers
* In case of legal guard	ıan (gu	ıardıar	n app	oointe	ed by (Court)			e copy le and					or											
First	Applic	cant					<u>'</u>	vaii			d App			CI.						Thi	rd Ap	plican	t		
Operating Instructions	(Pleas								0					. 41.		-	^			N *	-1- 1	000		21.0	16 \
Self		∟ithe	er or S	Surviv	or	F	orme	io 15	Survi	vor			Joir	ıtıy		+	Any	one	or S	Survivo	or/S	Oth	iers (F	-ı. Sp	ecify)
Facilities required (Plea	ase ma	ırk ✓ iı	n app	propr	iate b	ox/es)	:																		
	С	heque	Вос	k 🗌												State	nent	of A	\cco	unt th	rough	1			
Issued Cheque Series N	No			to							Pass	book			Po	ost	1	E-	-mail		[Deliver	y at bi	anch	
Date of Issue:											State	emen	Freq	uend	cy:	Мо	nthly			Quar	terly				
Internet Banking – Baro	da Cor	nnect							Debit (cun	n ATM	Card								Pho	ne Ba	anking			
Please issue Debit cum /	ATM ca																					or S):			
First applicant		N	ame	to ap	pear	on Del	oit cu	um /	ATM C	arc	in C	APITA	L LET	TER	8 S (ı	not to	ехсе	ed 2	20 ch	naract	ers)				
Second applicant								+	+						+							+	1		
Third applicant										\dashv					\top					1			1		



(Sole / First Applicant)

1 MM D =									_										
					Eirot A	\nnlicant	Re	eside	ential Ad		067	od A	liocat				[hi=e]	Applie	a+
Flat No. / Bldg. N	ame				FIRST P	Applicant				Se	con	ia App	olicant				nıra	Applica	11
Street / Road & A		it.	-												-				
City and District	ilea / Lucai	ity	<u> </u>						+										
	.,		<u> </u>						-						_				
State and Country	У																		
Pin Code																			
Tel No. / Fax No.									-										
Mobile									-						_				
Email								/15	1:55										
				C		nication Ad Applicant	aares	s (IT	different				olicant	ress)		7	Chird	Applica	a+
Flat No. / Bldg. N	ame				THSTF	Аррисан				36	COI	iu Apj	Jilcani				IIII u	Applical	11.
Street / Road & A		itv													+				
City and District	irea / Locai	ity																	
State and Country	11		<u> </u>						+										
Pin Code	У		<u> </u>						1						_				
			-						+										
Tel No. / Fax No.																			
Mobile					D	us a sat A al al si	/	lu a	an of NI	3E I.o.	al a	ر میراد اد	a la la	alt a					
						nent Addr Applicant	ess /	in ca	ase of Ni				s in in olicant	ala		-	Chird	Applica	nt .
Flat No. / Bldg. N	ame				111317	тррпсант				36	COI	іч Арі	nicant			<u> </u>	IIII u	Applicat	11.
Street / Road & A		itv							+						\dashv				
City and District	ica / Local	ity													_				
State and Country			_																
Pin Code	у																		
Tel No.																			
OTHER INFOR	MATION	: (√ ti	ick o	ne)															
Education	:	Non N				SS	C/HS	С				Grad	uate			Pos	st Gra	duate	
Monthly Income (₹) :	Upto	5000	/-	500	01 - 10000		10	0001 - 20	000	一	2000	1 - 500	00	500	01 – 1 lac		Above	1 lac
,	•														1			1	
Expected Annual					₹						-								
If salaried, emplo	_		<u> </u>			D			11: 0							, ,		/DI 0	· · · · ·
Proprietorship	Public Lt		MN			Partnershi	p	P	ublic Sec	tor	P	vt. Ltd		Gov	ernme	ent O	tners	(Pl. Spec	сіту)
If Professional: (v	<u>-</u>																		
Doctor	Architec	t		CA / CS	3	IT Con	sultar	nt	Engine	er		Lawy	er	С	thers	(Pl. Specify	y)		
If Business: (✓ tio	ck one)																		
Manufacturing	Real Esta	te	Antiq	lue	Service	ce Provider	1	Trad	er	Arms	Dea	aler	Agric	ulture	S	tock Brokei	r (Others (P	I. Specify)
DECLARATION (F	lease mar	k (√) i	n anı	oropria	te hoxe	es).													
[] I/We declare th							er ban	ık/s.											
[] I/We declare th				•					ties with	your/otl	her	banks	branch	nes:					
Bank &	Branch			Place	of Bank	k / Branch		Ty	pe of A	ccount	/Fa	acility		1	Amou	nt		Αςςοι	ınt No.
			Т																
TERMS & CONDITION	S & DECLAR	ATION (I	Please	mark (v	() in app	ropriate box	es):												
I/We have read, understo- www.bankofbaroda.com							f the ab	ove a	ccounts/serv	rices/prod	ucts/	Fee & cl	narges wh	ich are dis	played o	on the website			
[] I/We wish to be infor [] Please do not call/co	med about the	various fe	eatures	/products	and promo	otional offers m													
 Please issue Multi-c 	city / Normal o	heque bo	ok and	recover c	harges fro	m my/our acco	unt as p	oer nor	rms of the ba			ion)							
 Account will be oper I shall represent the 	said minor in a	III future tra	ansacti	ions of any	y descripti	on in the above	accour	nt until	the said mir			jority.							
 I will indemnify the E I/We understand that 												out any	penal cha	rges to the	claimar	nt(s) after follov	ving the	e due proced	lure.
 I/We also agree to n minimum / quarterly 																			
and also will be disp I/We shall fill up sepa	layed on the n	otice board	d of the	branches	one mon	th in advance.	-									•			
us. • I/We authorize Bank			-			•													
of Baroda and its Gr	roup entities/co	mpanies a	are em	powered t	o exchang	ge, share or pa	rt with a	all the i	information,	data or d	ocun	nents rel	ating to m	y/our appl	ication i	nterse among t	hemse	lves or to ot	her Banks/Financi
Institutions/Credit But furnishing of the pro-	cessed informa	tion/data/	product	ts thereof	to other B											sing of such in	tormati	on/data by s	such person/s or t
 For Debit-cum ATM Care I/We have read and 	understood the	terms & c	conditio	ns govern	ing the us														
its sole discretion. I/N required mandate to	Ne authorize E	ank of Ba	roda to	issue a D	ebit-cum /	ATM Card to th	e perso	n/s as	name ment	ioned in t	he ap	oplicatio	n of accou	int opening	form. I	confirm that I a	am the	sole accoun	t holder or have th
bank. • I/We understand and	•	_								-		-	-					-	
Exchange Managem	ent Act, 1999 a	and the an	nendme	ents there	of stipulate	ed by Reserve	Bank of	India t	from time to	time.	-		ia iii iile e	voin Oi dilly	ranule l	o ao ao. 1/448 W	ıııı De Ilê	anie ini grilc	ii anaer uie FOIEK
I/We accept full resp Full Signature (in runn			ι Card a	and agree	not to ma	ake any claims	against	Bank (oi Baroda in	respect t	nerei	iU.							

(Second Applicant)

(Third Applicant)



Bank of Baroda Introduction from an existing account holder (at least six months old satisfactorily conducted and KYC compliant account: Name: Account No .: Date of opening of the A/c.: Address: Customer ID: PIN: E-mail: Branch Name: Tel. No.: Mobile: Type of A/c. SB/CA/CC/OD: Fax: I/We certify that, Mr./Mrs./Ms. is/are known to me/us personally since last months/years and confirm the occupation and address stated in this application form for opening account are correct to the best of my/our knowledge & belief. Date: (Signature of the Introducer) TITLE OF THE ACCOUNT ACCOUNT NO. **BRANCH OPERATING INSTRUCTIONS** Name Specimen Signature Photograph 1. Recent Photo Customer ID 2. Recent Photo Customer ID 3. Recent Photo Customer ID Signature: (SS No.: Name: Bank Official in whose presence signed ______ Form DA-1 Nomination Form Nomination under section 45ZA to 45ZF of the Banking Regulation Act, 1949 and 2(i) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of bank deposits. name(s) and address(es) nominate the following persons to whom in the event of my/ our/ minor's death, the amount of the deposit, particulars whereof are given below may be returned by Bank of Baroda Branch. Nominee If Nominee is a Distinguishing Additional Address of Relationship Nature of Name of Age Minor, her/his Deposit No. Details (if any) Nominee Nominee with depositor (if any) date of birth# #As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Mr./Mrs./Ms. (Name Address, and Age) to receive the amount of deposit on behalf of the nominee in the event of my/our/minors death during the minority of the nominee. Name of the Nominee in the Pass Book/Statement of Accounts/FDRs required-Yes/No Date: ___ (please indicate option) Place: __ # Strike out if nominee is not a minor @Signature, Name and Address of Witness *Signature/Thumb Impression of Depositors

^{*}Where deposits is made in the name of a minor the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.

[@]Signature(s) of depositor(s) should be witnessed by one person, thumb impression(s) of depositor(s) should be witnessed by two person(s)



Details of Identification documents submitted by the applicant/s.

(CARE: FOR NRI APPLICANTS COPY OF PASSPORT MUST BE SUBMITTED AS IDENTIFICATION DOCUMENT)

		Photo Identity			Address Proof Identity	L
	1	2	3	1	2	3
Type of Document						
Document Number						
Issuing Authority						
Date of Issue						
Place of Issue						
Valid Up to						

Form 60 / 61 (to be filled by those who do not have PAN)

Form 60				
Are you a Tax Assessee	Yes	No	if Yes	
a) Details of Ward / Circle / Range wh	ere the last return of income	was filled :		
b) Reason for not having PAN No.:				
Form 61				
To be filled by a person who has only a	gricultural income and no othe	er income chargeable to ir	ncome tax.	
I hereby declare that my source of inco	me is from agriculture and I ar	m not required to pay inco	ome tax on any other in	icome if any.
<u>Verification</u>				
1		do hereby declar	e that what is stated is	true to the best of my knowledge and belief.
Verified atth	is the	_ day of	20	
Date :	Place :			
				Signature of the Declarant

KYC IDENTIFICATION DOCUMENTS / PAPERS TO BE SUBMITTED BY APPLICANT(S)

(Any one document from each of the following two lists subject to Bank's satisfaction.)

	LIST – I (Latest / recent photo identification documents)		LIST – II (Latest / recent documents showing address proof)
1.	Passport	1.	Passport
2.	Driving License with Photograph	2.	Driving License with address, Voters' Identity Card
3.	Voter's Identity Card	3.	Utility Bill of any service provider (not more than 2 Months old)
4.	PAN Card/Form 60	4.	Property or municipal Tax receipt
5.	Aadhar / NAREGA	5.	Pension payment orders (PPOs)
6.	Letter issued by National Population Register (NPR)	6.	Letter of allotment of accommodation from employer
7.	For married woman, proof of identity with her maiden name, if supported with a verified true copy of marriage certificate is acceptable as valid identity proof	7.	In case of married woman address proof of the groom is acceptable

For Office Use

Sr. No.	Description	Name of Authorised Staff	Signature
1.	Applicant interviewed & purpose ascertained by		
2.	Document(s) of identification/address proof listed above were verified with original by		
3.	Letter of thanks sent to A/c. holders and Introducer on		
4.	Money Laundering Risk Classification [] Low [] Medium [] High		

KYC CERTIFICATION:

I have met the account opener/s Mr./Ms.	I have verified the	
Mr./MsMr./Ms confirm that KYC Norms are fully complied with and further confirm that i) a) The introducer has visited the branch OR b) The introducer has not visited the branch but written confirmation obtained. ii) The signature of the introducer is verified and his/her Account is more than six months	·	confirm that KYC Norms are fully complied with. Signature of Branch Head/
Signature of Head of the Department Specimen Signature No	Date:	Date:



APPLICATION FORM FOR INTERNET BANKING

I / We r		you to regi								ng Fa		nd Iin View					vith yo ny on		nch /	othe	r braı	nch/es	with the
ge.		Other Fac		-> NE]		x Pay	-				`		•	availed)				
Transac	ction aler	rt on mobil	e – YES /	NO				-															
Preferr	ed USEF	R ID (Mini	mum 6 ch		ers)		1					2					3						
		ed subject to a		kad fa	r Intor	not B	anking	a.															
				Neu 10	i iiitei	net D	anking	9.	44.5														
Na	ame of J	lt. A/c. hol	lders						14 D	igit A	ccoun	t No.							Mod	le of	opei	ations	
User's	obligation	ns [.]																					
1. The avo	e user is oid using ndatory.	welcome t PCs with p	public acc	ess. Th	ne Pa	sswor	d give	en by	the Ba	ank m	ust be	repla	iced b	y the	User	of his	her o	hoice a	at the t	time	of fire	st login	. This is
		must Keep led by the						-															
Please	issue Us	ser I.D. and	d Passwor	d in th	e follo	wing	name):															
{Baroda	a e-banki	ing Retail :	Services a	re pro	vided	only i	in thos	se acc	counts	s whe	re the	mode	of op	eratio	on is o	ne of	the fo	llowing	g:				
(1) Self	(2) Eith	her or Surv	vivor (3) A	Any on	e or S	Surviv	or/Sur	rvivors	s.}														
Each si	ignatory t	to an acco	unt requiri	ng acc	cess to	o Bar	oda e-	hanki															
			•			o Dan	ouu o	-Daliki	ing Re	etail S	ervice	s mus	st hav	e a s	epara	te Us	er I.D.	and P	asswo	rd.			
	Name o	of A/c. hold	<u> </u>				stome			etail S					epara)./Pas			and P			natur	e	
	Name o	of A/c. hold	<u> </u>							etail S			te Us Ye	er I.C es / N	0./Pas			and P			natur	e	
	Name o	of A/c. hold	<u> </u>							etail S			te Us Yo	er I.C es / N es / N	0./Pas 0			and P			natur	e	
	Name o	of A/c. hold	<u> </u>							etail S			te Us Yo	er I.C es / N	0./Pas 0			and P			natur	e	
OTHER I/We ha www.b: • I co	R TERMS ave read ankofba onfirm tha npleted 1	S & COND I, understo Iroda.com at I am the 18 years of	ITIONS & and the Band / contained a sole accordance if age. I/We	DECL ank's red in the	ARA ules re broo	Cus FION: elatin chures or hav	stome g to the s of the	the above Ban	oove A	Accou gree to	nts/Sec abide te to c	rvicese by the	Ye Us Ye Ye Ye S/Proone san e the	es / N	o o o Fee {	& Changes	arges therei	which n that r	are die may be	Sigr splay e mad	ved o	n the om time	e to time. We have
OTHER I/We have www.bs/ I concord to n I/W ties con	R TERMS ave read ankofba onfirm the npleted 1 my/our active do here that manditions a	S & COND I, understo uroda.com at I am the 18 years of	ITIONS & pod the Bay / contained a sole according and file, suffered operations	DECL ank's red in the bount has under vated. Forever or inces in my	LARA ules r e broo	Cus FION: elatin chure: or hav that i inde by th	g to the upon is mnifie e Bannt mai	hhe ab e Ban requi	oove Ak. I aq ired nof Del Bank reason	Accou nanda bit Ca and of n	nts/Seo abide te to cord to mits sucon cord ank ar	rvices by the perate defus, accessor on plian don't	YOUNG SAME AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	er I.C es / N es / N dducts/, acco xistin d ass the to	O./Pas OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	& Channges alked 1 card	arges therei o the of Ba	which n that r Debit (nk of B against	are dia may be Card s aroda any a	splay splay ingly s sta	ved of de from and and and and and and and and and and	on the om time that I/\ one AT actions	e to time. We have M linked s, penal- erms and
OTHER I/We ha www.ba I co con to n I/W ties con gov I/W cus pho	R TERMS ave read ankofba onfirm tha npleted 1 my/our ac de do her that ma advirions a verned by de am/are stomers. one medi	S & COND I, understo Iroda.com at I am the 18 years of ccount will reby indem by be made	ITIONS & and the Bank of earth and und further agr	DECL ank's red in the ount he under vated. Forever or ince in my vs of the Baroce ertake	LARA ules r e brook e bolder e stand e keep de doer e keep da doe that d conf	Cus FION: elatin chure: inde by th inccou inde cublic es not //We s irm th	g to the soft the upon is mailed and of lades and seek shall read Bar	the above the same of the same	oove Ank. Lagired nof Del Bankereason ed by dino conforming part vi	Accou gree to nanda and nof not he B bother of ation	nts/Secondits successful and to matter the correction correction.	rvices by the perate defus, cessor and/or the strive one lial	YOUNG SA Proceedings of the use o	ducts/N ducts/N acco xistin d ass the tree of t	D./Pas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	& Changes and card from from from from from from from from	d arges therei of Ba and a and	which n that r Debit (nk of B against ons me ided th	are dismay be Card s aroda any a entione rough	splay splay ingly s sta	ved of de from and and and and and and and and and and	n the om time that I/N one AT actions The teonnect	e to time. We have M linked s, penal- erms and shall be s from its
OTHER I/We ha www.b: I co con to n I/W ties con gov I/W cus pho	R TERMS ave read ankofba onfirm that anylour active do here that manditions a verned by the am/arestomers. One mediand/or pa	S & COND I, understo Iroda.com at I am the 18 years of ccount will reby indem by be made and/or the of y the appro- e aware the I/We agree ium. I/We f	ITIONS & pod the Ball / contained as sole according and free, suffered operations operated law at Bank of the earn under further agricularly anyone, reanyone, DECL ank's red in the bunt he under vated. Forever or ince in my vs of the Baroce ertake eee and	LARAT ules rebrowded by the conference of the co	Cus FION: elatin chure: inde by th ccou public ses not //We s irm th ke cla	g to the soft the soft mailing of land seek shall read the seek sh	the able Band required the lab and the lab	boove Ank. I aquired no form part value bank	Accou gree to nanda to and of not the B other of ation with a da sha	nts/Secondits success and arrelating my serial not my unai	rvices by the perate level of the perate level	Your Your Your Your Your Your Your Your	ducts/ Nees / Ne	D./Pas o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	& Changes hked 1 card from and crvices ord in my/ou s aris	d d d d d d d d d d d d d d d d d d d	which n that r Debit (nk of B against ons me ided th orm inc unt es om my/	are dismay be Card s aroda any a entione rough eluding peciall our sh	splayse made in many street in through the many street in through the many street in through the many street in through the many street in through the many street in	ved code from and and and and and and and and and and	on the some time that I/Vone AT actions The teonnect e-mails internectlosing	e to time. We have M linked s, penal- erms and shall be s from its bt/e-mail/ of Login	
OTHER I/We ha www.ba I co con to n I/W ties con gov I/W cus pho ID a	R TERMS ankofba ankofba onfirm tha npleted 1 my/our ac de do her that man ditions a verned by de am/are stomers. one medi and/or pa hall repre	S & COND I, understo Iroda.com at I am the I8 years of ccount will reby indem y be made and/or the y the appro- e aware tha I/We agree ium. I/We fassword to	ITIONS & and the Bank of the sole according and the Bank of the and undifferent agreements of anyone, reminor according according anyone, reminor according according anyone, reminor according any according anyone, reminor acco	DECL ank's red in the ount he under vated. Forever or or ince in my vs of the Baroce ertake ree and nor sha	ARA* ules r e broo rstand keepe d/our a e Rep da doe that d conf	FION: elatin chure: inde by th inde ccoul ccoul ces not //We s irm th ke cla all fu	g to the soft the upon is mified and seek shall read that Balaims outture tread to the seek shall read Balaims outture tread to the seek shall read Balaims outture tread to the seek shall read Balaims outture tread to the seek shall read Balaims outture tread to the seek shall read to the seek sha	the able Ban requires the control of	boove Ank. I agained in of Del	Accou gree to nanda abit Ca and n of n the B bther of ation with a da sha for ar	nts/Second to make and and and and and and and and and and	rvices by the perate technique to the control of th	Your Your Your Your Your Your Your Your	ducts/ Nes / N ducts/ Nes / N ducts/ Nes / N ducts/ Nes / N ducts/ Nes ducts/	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	& Changes and card from from from from from from from from	d arges therei of Ba and a and a and for according from tuntil	which n that r Debit (nk of B against cons me ided th corm inc unt es com my/	are dismay be card sarodas any a contione rough cluding peciall our sh	splay splay e mad ingly 's sta ll cla ed he Barc thro y tho aring or at	ved of de from and all mandals and all mandals are in. oda consugh of the consumer of the cons	on the some time that I/Vone AT actions The teonnect e-mails internectlosing	e to time. We have M linked s, penal- erms and shall be s from its bt/e-mail/ of Login

_____ (in dd/mm/yyyy format)